इंटरनेट पर देखें
www.dainikdawa.com

संस्कारधानी से प्रकाशित मध्यभारत व छत्तीसगढ़ अंचल का सर्वप्रसारित लोकप्रिय हिंदी समाचार पत्र

भारत सरकार व छत्तीसगढ़ शासन से विज्ञापन के लिए अधिकृत

दैनिक प्रातः संस्करण

"यो आत्मानं वेत्ति, सर्वं स वेत्ति"।।

दावा

सम्पादक - दीपक कुमार बुद्धदेव

आर.एन.आई.नं. 58841/93
डाक पंजीयन छ.ग./दुर्ग/14/2024-26

वर्ष- 44 अंक -27 राजनांदगांव, शुक्रवार 13 दिसम्बर 2024 पृष्ठ - 8 मूल्य - 4.00 रुपए

साय सरकार के एक साल पूरे, मुख्यमंत्री का बड़ा ऐलान, 2028 तक छत्तीसगढ़ का जीडीपी 10 लाख करोड़ करने का लक्ष्य

रायपुर (दावा)। प्रदेश में भाजपा की सरकार के एक साल के कार्यकाल की उपलब्धियों को बताते हुए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने 'विष्णु की पाती' नाम से जनता के लिए संदेश जारी किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य 2028 तक छत्तीसगढ़ की जीडीपी 10 लाख करोड़ करने का है। हमारी सरकार इस दिशा में काम कर रही है।

भाजपा प्रदेशाध्यक्ष किरण सिंह देव के साथ उप मुख्यमंत्री द्वय अरुण साव, विजय शर्मा सहित मंत्रिमंडल के तमाम सदस्य मौजूदगी में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार के एक वर्ष पूरे होने पर मैं अपने मंत्रिमंडल के सभी साथियों को बधाई देता हूँ। संगठन के सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को बधाई देता, जनता का आभार जताता हूँ, जिन्होंने ऐतिहासिक जनादेश देकर हमें छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा का अवसर दिया है। इस एक साल को हमने विश्वास का साल दिया है मुख्यमंत्री साय ने कहा कि कांग्रेस की सरकार में अविश्वास का माहौल था. लोकतंत्र पर खतरा मंडरा गया था। लेकिन हमारी सरकार में लोकतंत्र को कायम करने, संविधान की रक्षा करने का काम किया है, मोदी की गारंटी में जो हमने वादें किये थे, उसे हमने एक साल में पूरा करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। उन्होंने कहा कि एक साल में सुशासन की सरकार जनता के सामने हमने पेश किया है, भ्रष्टाचार पर लगाम, गुनहगारों पर कार्रवाई, किसानों के साथ न्याय, धान का कटोरा भरा हुआ है, महतारियों का वंदन, गरीबों को पीएम आवास, पीएससी के युवाओं के साथ न्याय यह सब हमारी सरकार के एक साल में हुआ है। हमारी सरकार के एक वर्ष पूरे होने पर मैं अपने मंत्रिमंडल के सभी साथियों को बधाई देता हूँ। संगठन के सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूँ, जनता का आभार जताता हूँ, जिन्होंने ऐतिहासिक जनादेश देकर हमें छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा का अवसर दिया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस एक साल को हमने विश्वास का साल दिया है, कांग्रेस की सरकार में अविश्वास का माहौल था। लोकतंत्र पर खतरा मंडरा गया था, लेकिन हमारी सरकार में लोकतंत्र को कायम करने, संविधान की रक्षा करने का काम किया है। मोदी की गारंटी में जो हमने वादें किये थे, उसे हमने एक साल में पूरा करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। एक साल में सुशासन की सरकार जनता के सामने हमने पेश किया है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार पर लगाम, गुनहगारों पर कार्रवाई, किसानों के साथ न्याय, धान का कटोरा भरा हुआ है, महतारियों का वंदन, गरीबों को पीएम आवास, पीएससी के युवाओं के साथ न्याय यह सब हमारी सरकार के एक साल में हुआ है। *(शेष पृष्ठ 7 पर...)*

केजरीवाल के खिलाफ कांग्रेस ने संदीप दीक्षित को उतारा : 21 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी

नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के लिए कांग्रेस ने 21 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है। केंद्रीय कार्यसमिति (सीडब्ल्यूसी) की बैठक के बाद कांग्रेस ने नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अपने पुराने और दिग्गज नेता संदीप दीक्षित को उतारा है। शीला दीक्षित इसी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती थीं। पटपड़गंज सीट से चौधरी अनिल कुमार मैदान में होंगे, जहां से आप के अवध ओझा प्रत्याशी बनाए गए हैं।

पिछले दिनों मीनाक्षी नटराजन की अध्यक्षता वाली प्रदेश कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की हुई बैठक में 21 नामों की सूची तैयार की गई थी। बृहस्पतिवार शाम कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल की उपस्थिति में सीडब्ल्यूसी की बैठक में इस सूची को मंजूरी दी गई।

आप के बागी अब्दुल रहमान सीलमपुर से प्रत्याशी

पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव को बादली से चुनाव मैदान में उतारा है। सीलमपुर से टिकट कटने के बाद आम आदमी पार्टी छोड़कर पिछले दिनों कांग्रेस में शामिल होने वाले अब्दुल रहमान को भी चुनावी रण में उतारा जा रहा है। दिल्ली के पूर्व मंत्री हारून यूसुफ एक बार फिर से बल्लीमारान से चुनाव लड़ेंगे। दिल्ली चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार संदीप दीक्षित- नई दिल्ली, देवेंद्र यादव - बादली, रोहित चौधरी - नांगलोई, रागिनी नायक - वजीरपुर, अभिषेक दत्त - कस्तूरबा नगर, अनिल चौधरी - पटपड़गंज, मुदित अग्रवाल - चांदनी चौक, हारून यूसुफ - बल्लीमारान, अली मेहंदी - मुस्तफाबाद, अब्दुल रहमान - सीलमपुर (मौजूदा विधायक), आदर्श शास्त्री- द्वारका, अरुणा कुमारी- नरेला, मगेश त्यागी- बुराड़ी, *(शेष पृष्ठ 7 पर...)*

असम में एनआरसी नहीं तो आधार कार्ड नहीं, सीएम हिमंत बोले- बांग्लादेश से घुसपैठ...

नई दिल्ली। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा के आधार कार्ड के आवेदन को लेकर राज्य में नए नियम लागू करने का संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने भरपूर समर्थन किया है। नए नियम के तहत जिन लोगों ने एनआरसी में शामिल करने के लिए आवेदन नहीं किया है, उनके आधार कार्ड के आवेदन रद्द कर दिए जाएंगे।

इस फैसले की आलोचना करते हुए विपक्षी दलों ने असम को अविकसित राज्य करार दिया है। जेपीसी अध्यक्ष और भाजपा नेता जगदंबिका पाल ने गुरुवार को कहा कि यह राज्य का अधिकार है कि वह ऐसे निर्णय ले। उन्होंने राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि हर किसी को कम से कम अपना एनआरसी करा लेना चाहिए, क्योंकि यही असम में भारतीय नागरिकता की पहचान का आधार है।

आप पर लगाया रोहिंग्याओं को बसाने का आरोप

उन्होंने कहा कि असम सरकार यह प्रयास कर रही है कि इस प्रक्रिया में केवल वैध निवासी ही शामिल हों। *(शेष पृष्ठ 7 पर...)*

मोदी सरकार का बड़ा फैसला : वन नेशन वन इलेक्शन पर कैबिनेट की मुहर, संसद में जल्द पेश होगा विधेयक

नई दिल्ली। मोदी सरकार ने अपनी आठवीं कैबिनेट बैठक में एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। गुरुवार (12 दिसंबर) को हुई इस बैठक में 'वन नेशन वन इलेक्शन' विधेयक को मंजूरी दे दी गई। अब इसे संसद में पेश किए जाने की तैयारी है।

इस विधेयक से देशभर में एक साथ चुनाव कराने का रास्ता साफ हो सकता है। इसके अलावा, कैबिनेट ने कई अन्य योजनाओं और प्रोजेक्ट्स पर भी चर्चा की। इस बीच बीजेपी ने 13 और 14 दिसंबर को अपने सभी सांसदों को सदन में मोजूद रहने का व्हीप जारी किया है।

'वन नेशन, वन इलेक्शन' पर मुहर, संसद में होगा पेश

मोदी कैबिनेट ने 'वन नेशन, वन इलेक्शन' विधेयक को मंजूरी देकर देश में एक बड़ा सुधार करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। यह विधेयक लोकसभा और विधानसभा चुनावों को एक साथ कराने का प्रावधान करता है। इससे समय और खर्च में कमी आएगी। सूत्रों के अनुसार, विधेयक को संसद के आगामी सत्र में पेश किया जा सकता है। यह फैसला सरकार की लंबे समय से चली आ रही 'सुधारात्मक राजनीति' की नीति का हिस्सा है।

पिछली बैठक में घोषित हुई थी तक्कोड वाली पैन योजना

मोदी सरकार ने 25 नवंबर की बैठक में पेन-2.0 प्रोजेक्ट को मंजूरी दी थी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस प्रोजेक्ट के तहत तक्कोड वाले पैन कार्ड जारी किए जाएंगे। इस पर 1435 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। यह कार्ड पूरी तरह पेपरलेस प्रक्रिया के जरिए बनाए जाएंगे। इसके साथ ही, डेटा सुरक्षा पर खास जोर दिया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य पैन कार्ड को *(शेष पृष्ठ 7 पर...)*

आज नड्डा आएंगे रायपुर : सरकार के एक साल पूरे होने पर आयोजित जनसभा को करेंगे संबोधित

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा शुक्रवार को राजधानी रायपुर आएंगे। छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार के 1 वर्ष के कार्यकाल पूरा होने के अवसर पर आयोजित आमसभा को वे संबोधित करेंगे।

बताया जा रहा है कि, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ भी बैठक करेंगे। उनके दौरे का मिनट टू मिनट कार्यक्रम तय हो गया है। जेपी नड्डा दोपहर 2.45 बजे पहुंचेंगे रायपुर। 3.30 बजे साइंस कॉलेज स्थित सभा स्थल में आमसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद 4.55 बजे कुशाभाऊ ठाकरे परिसर सानी प्रदेश भाजपा कार्यालय में प्रतिमाओं का अनावरण करेंगे। शाम साढ़े पांच से साढ़े छह बजे तक प्रदेश कार्यालय में ही भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। शाम 6.40 बजे विधायक कॉलोनी में पूर्व राज्यसभा सांसद स्वर्गीय गोपाल व्यास के परिजनों से भी मिलेंगे। इसके बाद शाम 7.40 बजे रायपुर से दिल्ली के लिए निकल जाएंगे।

अमित शाह के बस्तर दौरे के पहले बड़ा एनकाउंटर, जवानों ने 7 नक्सलियों को किया ढेर

नारायणपुर (दावा)। केंद्रीय मंत्री अमित शाह के बस्तर दौरे के पहले छत्तीसगढ़ में बड़ा एनकाउंटर हुआ है, अबूझमाड़ के जंगल में सुरक्षाबलों ने 7 नक्सलियों को मार गिराया है। इन सभी के शव भी बरामद कर लिए हैं, ये मुठभेड़ नारायणपुर और दंतेवाड़ा जिले के बॉर्डर पर अबूझमाड़ के जंगल में गुरुवार की सुबह हुई है।

इस मुठभेड़ में कई नक्सलियों के घायल होने की भी खबर है, दरअसल बस्तर पुलिस को सूचना मिली थी कि अबूझमाड़ के जंगल में बड़ी संख्या में नक्सलियों की मौजूदगी है। इस सूचना पर बस्तर से चार जिलों के जवानों को 10 दिसंबर को भेजा गया था. दो दिनों से जवानों की टीम जंगल में ही मौजूद थी, गुरुवार की सुबह टीम नक्सलियों की ठिकाने पर पहुंची और यहां मुठभेड़ हो गई, दोनों ओर से ताबड़तोड़ गोलीबारी हुई, करीब 6-7 घंटे तक रुक-रुक कर गोलीबारी हुई, जवानों ने जब इलाके की सर्चिंग की तो 7 नक्सलियों के शव मिले हैं। 15 और 16 दिसंबर को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह बस्तर के दौरे पर रहेंगे, इससे पहले बस्तर में नक्सल अभियान में जवानों को बड़ी सफलता मिली है।

बड़े कैडर हो सकते हैं

बताया जा रहा है कि इस मुठभेड़ में कुछ नक्सली घायल भी हुए हैं, हालांकि जवानों की टीम अभी घटनास्थल पर ही है। इलाके की सर्चिंग की जा रही है, मारे गए नक्सलियों की संख्या भी बड़ सकती है, मारे गए नक्सलियों में बड़े कैडर के नक्सली भी हो सकते हैं। हालांकि जवानों के मुख्यालय लौटने के बाद नक्सलियों की पहचान की जा सकेगी, दंतेवाड़ा के एसपी गौरव राय ने इस मुठभेड़ की पुष्टि की है।

अमित शाह कल आएंगे छत्तीसगढ़ : बस्तर में डेढ़ घंटे तक अज्ञात स्थान पर करेंगे सीक्रेट मीटिंग

रायपुर। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह तीन दिवसीय प्रवास पर 14 दिसंबर को छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे। रात 11.10 बजे वे रायपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। रायपुर एयरपोर्ट से सीधे मेफेयर रिसोर्ट रवाना हो जाएंगे। श्री शाह मेफेयर में ही रात्रि विश्राम करेंगे। 15 दिसंबर को सुबह 11.00 बजे पुलिस ग्राउंड में राष्ट्रपति पुलिस कलर्स अवार्ड में शामिल होंगे।

कार्यक्रम में पुलिस अधिकारियों को सम्मानित करेंगे। दोपहर पौने दो बजे रायपुर एयरपोर्ट से जगदलपुर के लिए उड़ान भरेंगे। दोपहर 2-50 बजे इंदिरा प्रियदर्शनी खेल मैदान में बस्तर ओलंपिक के समापन कार्यक्रम में शामिल होंगे। खेल मैदान में ही सुरक्षाबलों के अधिकारियों और जवानों के साथ नक्सल अभियान की समीक्षा करेंगे। इसके बाद शाम सवा पांच बजे भाजपा कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। इसके साथ ही री शाह का वहीं रात्रि विश्राम का कार्यक्रम है।

16 दिसंबर को अमर वाटिका में सुबह 10.30 से 11.15 बजे तक अमर शहीदों को श्रद्धांजलि एवं शहीद परिवार तथा वामपंथी उग्रवादी हिंसा में मृत व्यक्तियों के परिजनों से भेंट व चर्चा करेंगे। सुबह साढ़े ग्यारह बजे जगदलपुर से गुप्त स्थान के लिए रवाना होंगे। *(शेष पृष्ठ 7 पर...)*

पत्नी के रहते दूसरा विवाह करने के मामला, कोर्ट ने पांच आईएएस अफसरों के खिलाफ जारी किया अवमानना नोटिस

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारिता विभाग के संयुक्त पंजीयक द्वारा एक पत्नी के रहते दूसरा विवाह करने के मामले में हाईकोर्ट के आदेश पर भी कार्रवाई नहीं हुई। कोर्ट ने इस संदर्भ में दायर अवमानना याचिका पर विभाग के पांच आईएएस अफसरों के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी किया है।

बता दें कि 25 अक्तूबर 2020 को बिलासपुर निवासी विनय शुक्ला ने सहकारिता विभाग से शिकायत की थी कि बिलासपुर संभाग के तत्कालीन संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं सुनील तिवारी द्वारा सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 22 का उल्लंघन करते हुए एक पत्नी के रहते हुए दूसरा विवाह बिना शासन के मंजूरी के किया गया है। दूसरी पत्नी से उसका पुत्र भी है। यह भारतीय दण्ड विधान की धारा 166, 420, 34 एवं अन्य धाराओं के तहत अपराध है। अतः अपचारी अधिकारी को निलंबित किया जाए, विभागीय जांच कर उसे बर्खास्त कर, उसके विरुद्ध आपराधिक प्रकरण भी दर्ज कराया जाए।

शिकायत पर संबंधित अधिकारियों द्वारा कार्रवाई न करने पर 27 जुलाई 2021 को शिकायतकर्ता ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। 29 सितंबर 2023 को कोर्ट ने संयुक्त पंजीयक के विरुद्ध इस मामले की 6 माह के भीतर जांच किए जाने के आदेश दिये। इसके बाद भी कोई कार्रवाई न होने पर 12 सितंबर 2024 को संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की, जिस पर सुनवाई करते हुए जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास की सिंगल बेंच ने हिमशिखर गुप्ता तत्कालीन सचिव सहकारिता, सीआर प्रसन्ना वर्तमान सचिव सहकारिता, रमेश शर्मा तत्कालीन पंजीयक सहकारिता, दीपक सोनी तत्कालीन पंजीयक सहकारिता और कुलदीप शर्मा वर्तमान पंजीयक सहकारिता को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

एक बच्चे के जीवन में मां का योगदान बहुत महत्वपूर्ण होता है - डॉ. रमन सिंह

रायपुर (दावा)। आज छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने 'स्पीकर हाउस' के सभाकक्ष में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होकर क्लेट 2025 परीक्षा में सफल हुए प्रदेश के 20 युवाओं को शुभकामनायें व्यक्त कीं।

स्पीकर हाउस के सभागृह में आयोजित हुआ सम्मान कार्यक्रम, विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने क्लेट परीक्षा में उत्तीर्ण युवाओं को दीं शुभकामनाएं

विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने इस अवसर पर अपने उद्बोधन में करियर लांचर संस्थान की 29 वर्षों की उत्कृष्ट यात्रा और शिक्षा क्षेत्र में इसके योगदान पर कहा कि इस संस्थान ने रायपुर ने शिक्षा को केवल अकादमिक ज्ञान तक सीमित नहीं रखा, बल्कि छात्रों को सशक्त व्यक्तित्व और मजबूत करियर निर्माण की दिशा में प्रेरित किया है। उन्होंने बताया कि संस्थान ने अब तक 1000 से अधिक छात्रों को नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज और अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में प्रवेश दिलाकर राज्य और देश का नाम गौरवान्वित किया है।

कार्यक्रम में करियर लांचर रायपुर के छात्रों की उपलब्धियों की भी सराहना की गई। विशेष रूप से छत्तीसगढ़ के गौरव, अनन्य तामस्कर को छक्ख 2025 में ऑल इंडिया रैंक 3 हासिल करने पर सम्मानित किया गया। उनकी इस उपलब्धि ने उनके परिवार और राज्य को गर्व महसूस कराया है। इसके अलावा, करियर लांचर रायपुर के लगभग 20 छात्रों ने हाल ही में क्लेट परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर 24 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज में प्रवेश सुनिश्चित किया। इस पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए डॉ. रमन सिंह ने सभी विद्यार्थियों को उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं।

कार्यक्रम के दौरान करियर लांचर रायपुर के संस्थापक, श्रीमती प्रियंका सिंह और शैलेंद्र सिंह के 19 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में किए गए योगदान को भी सराहा गया। डॉ. रमन सिंह ने उनकी मेहनत और समर्पण की प्रशंसा करते हुए संस्थान के उज्ज्वल भविष्य की कामना की। साथ ही इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने कहा कि 'एक बच्चे के विद्यार्थी जीवन मां का सबसे अहम योगदान होता है। इसके साथ ही अपनी सफलता के लिए अपनी माता को श्रेय देते हुए डॉ रमन सिंह ने उन्हें स्मरण भी किया। इस अवसर पर संस्थान के संस्थापक, शिक्षक, विद्यार्थी और अभिभावक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे, जिनकी भागीदारी ने कार्यक्रम को सफल बनाया।

सीजीपीएससी घोटाला में सीबीआई की रेड

राजनांदगांव (दावा)। पीएससी राज्यसेवा भर्ती घोटाला मामले में सीबीआई ने जांच तेज कर दी है। सीबीआई ने राजनांदगांव के ममता नगर में जीआर मेश्राम के घर दबिश देकर एक को पूछताछ के लिए ले गई है। चर्चा है कि पीएससी की पूर्व परीक्षा नियंत्रक आरती वासनिक से पूछताछ के बाद कार्रवाई की है।

पीएससी राज्यसेवा भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच कर रही है। सीबीआई ने पूर्व चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी और उद्योगपति श्रवण गोयल को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। दोनों की न्यायिक रिमांड पर है। इसके अलावा पूर्व परीक्षा नियंत्रक आरती वासनिक को भी गिरफ्तार किया है। आरती वासनिक सीबीआई की रिमांड पर है।

सीबीआई ने गुरुवार दोपहर ममता नगर इलाके में दबिश दी और एक व्यक्ति को अपने साथ ले गई है। आरती वासनिक मूलतः राजनांदगांव की रहने वाली है। हल्ला है कि सीबीआई जिस व्यक्ति को साथ लेकर गई है, वह आरती वासनिक से जुड़ा है। इसको लेकर वहां काफी हलचल रही। गृह मंत्री विजय शर्मा ने दो दिन पहले मीडिया से चर्चा में कहा था कि पीएससी घोटाले के तार ऊपर तक जुड़े हैं, आने वाले दिनों में कार्रवाई तेज होगी।

राइस मिलर्स अड़े : मांगें पूरी नहीं होने पर जताई नाराजगी, कस्टम मिलिंग नहीं करने का ऐलान

सरकार के खिलाफ करेंगे असहयोग आंदोलन, मिलरों के आंदोलन से परिवहन व्यवस्था होगी चौपट

राजनांदगांव (दावा)। छत्तीसगढ़ के राइस मिलर्स ने अपनी मांगें राज्य सरकार से सहमति मिलने उपरांत भी बकाया भुगतान, एसएलसी दर से परिवहन भुगतान एवं अन्य मांगें पूरी नहीं होने पर इस माह की 20 तारीख तक कस्टम मिलिंग के काम में असहयोग करने का निर्णय लिया है। साथ ही आज की बैठक में अधिकतम मिलर्स ने सरकार के विरोध स्वरूप काले कपड़े पहन कर विरोध प्रदर्शन किया।

इस संबंध में राइस मिलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष योगेश अग्रवाल ने बताया कि, गुरुवार को 12 दिसंबर को रायपुर के श्री राम मंदिर वीआईपी रोड के हाल में प्रदेश के समस्त मिलर्स की उपस्थिति में वृहद बैठक हुई। बैठक में पूरे प्रदेश से लगभग 2500 राइस मिलर्स उपस्थित थे। कैबिनेट की बैठक में चावल उद्योग से संबंधित विषयों पर निर्णय लिया गया है, जिसमें मिलर्स को वर्ष 2024-25 की प्रोत्साहन राशि 80/- रुपये प्रति क्विंटल करने, मिलर्स को वर्ष 2023-24 के प्रोत्साहन की एक किस्त का भुगतान करने के साथ ही पेनाल्टी विषय पर निर्णय लिए गए।

एसएलसी की दर पर अटका मामला

मिलर्स वर्ष 2022-23 के प्रोत्साहन की एक किस्त चाहते हैं, जबकि कैबिनेट ने वर्ष 2023-24 के भुगतान पर मुहर लगा दी, साथ ही एसएलसी की दर से भुगतान का विषय कैबिनेट में नहीं रखा गया। इन दो बड़ी मांगों पर पूर्व में राज्य सरकार के साथ चर्चा में सहमति के उपरांत भी मांगें पूर्ण नहीं होने पर मिलर्स का धैर्य टूट गया। बैठक में उपस्थित मिलर्स ने कहा कि, यह मिलर्स के साथ वादाखिलाफ़ी है। एक तरफ़ मिलर्स में कैबिनेट की बैठक होने के पूर्व उत्साह का वातावरण बना हुआ था। लेकिन कैबिनेट से जो निर्णय आया उससे पूरे प्रदेश के मिलर्स में निराशा का वातावरण बन गया।

प्रदेश सरकार से तत्काल निर्णय लेने का आग्रह

प्रदेश भर के मिलर्स ने मांग की है कि, प्रदेश सरकार तत्काल निर्णय लेकर जिन विषयों में सहमति बनी उस पर अमल होकर समस्या का समाधान निकाल सके जिससे किसानों को भी कोई असुविधा ना हो। उल्लेखनीय है कि, मिलर्स को कस्टम मिलिंग का बकाया भुगतान जो करोड़ों में है वह ना होने से उनकी आर्थिक स्थिति खराब है। मिलर के पास बैंक गारंटी बनाने, चावल जमा करने के लिए पैसे नहीं हैं। ऐसी स्थिति में मिलर को भुगतान के अभाव में मिलर कस्टम मिलिंग कार्य करने असमर्थ हो चुका है। यह पहला अवसर नहीं है जब मिलर अपनी समस्या को सरकार के सामने रख रहे हैं। एसोसिएशन के माध्यम से अनेक बार पत्र व्यवहार किया गया है। सभी जिलों के मिलर्स ने अपने जिले के जनप्रतिनिधियों को समस्या से अवगत कराया। यह पिछले काफ़ी दिनों से चल रहा था लेकिन अब तक इसका समाधान नहीं हो पाया। जिससे मिलर को यह निर्णय लेना पड़ा कि वे पुनः सरकार से आग्रह करते हैं कि, उनकी मांगों पर जिन पर सरकार ने सहमति दी उसे शीघ्र निर्णय लेकर पूरी करे। जिससे कस्टम मिलिंग कार्य सुचारू रूप से चल सके।

अमेरिका में सम्मानित होंगे बीमा सलाहकार उमेश हथेल

डोंगरगढ़ (दावा)। प्रतिभाशाली एवं सभी क्षेत्रों में अपनी अमिट छाप छोड़ने वाले उमेश कुमार हथेल, बीमा सलाहकार के रूप में सत्र 2025 के लिए मिलियन डॉलर राउंड ऑफ टेबल (एमडीआरटी) की आहर्ता प्राप्त की है। यह एक बड़ा सम्मान है। उन्हें अमेरिका में सम्मानित किया जाएगा।

पारिवारिक सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार उमेश कुमार हथेल ने 2018 से लगातार 8वीं बार यह सम्मान प्राप्त किया है। उन्होंने अपने इस उपलब्धि के लिए अपने सभी बीमा धारकों को धन्यवाद दिया है, जिनके प्यार, विश्वास और सहयोग से उन्हें यह सम्मान प्राप्त हुआ है।

यह सम्मान मेरा नहीं है, बल्कि यह आप सभी का है - हथेल

उमेश कुमार हथेल ने कहा, यह सम्मान मेरा नहीं है, बल्कि यह आप सभी का है। मैं अपने सभी बीमा धारकों को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया और मेरा सहयोग किया। मैं आशा करता हूं कि आप सभी का प्यार और सहयोग मुझे भविष्य में भी मिलता रहेगा। उमेश कुमार हथेल की इस उपलब्धि पर उनके परिवार, मित्र और सहयोगी सभी बहुत खुश हैं। उन्हें इस सम्मान के लिए बधाई व शुभकामनाएं दी है।

प्रतिभाशाली रिया गणवीर का सिविल जज में चयन

डोंगरगढ़ (दावा)। सामाजिक कार्यकर्ता राजू गणवीर की बेटी रिया गणवीर को लोक सेवा आयोग से सिविल जज में चयन होने पर सामाजिकगणों ने अपनी शुभकामनाएं दी है। सेवानिवृत रेलवे अधिकारी व सामाजिक कार्यकर्ता सिद्धार्थ नागदेवे ने कविता के माध्यम से अपनी भावना व्यक्त करते हुए कहा है कि, रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवाँ बदलता है; जज्बा रखो जीतने का क्यूंकि, किस्मत बदले न बदले, पर वक्त जरुर बदलता है। मेरी मंजिल मेरा हौंसला देख कर, डर मुझे भी लगा फासला देख कर, पर मैं बढ़ती गई रास्ता देख कर, खुद ब खुद मेरे नजदीक आती गई, मेरी मंजिल मेरा हौंसला देख कर जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का फिर देखना फिजूल है कद आसमान का।

पहला कॉलम...

अंचल के सुप्रसिद्ध वरिष्ठ चिकित्सकों की टीम राजनांदगांव में उपलब्ध

राजनांदगांव (दावा)। स्वास्थ्य सेवाओं में एक नई उपलब्धि हासिल करते हुए, अंचल के सुप्रसिद्ध वरिष्ठ चिकित्सकों की टीम अब राजनांदगांव में सतनाम भवन स्थित आरोग्यम क्लीनिक में उपलब्ध है। इस पहल से जिले के नागरिकों को उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा सेवाएं उनके अपने शहर में ही प्राप्त हो सकेंगी। विशेषज्ञों की इस टीम में पथरी, प्रोस्टेट एवं मूत्र रोग विशेषज्ञ डॉ नवीन राम दारुका, किडनी रोग विशेषज्ञ डॉ आर के साहू, नस, मस्तिष्क, स्पाइन रोग विशेषज्ञ डॉ कुलदीप सिंह, निसंतानता एवं आईवीएफ विशेषज्ञ डॉ रैनी अग्रवाल, कान नाक गला रोग विशेषज्ञ डॉ नमन पिंचा एवं चर्म रोग विशेषज्ञ जैसे विभिन्न क्षेत्रों के अनुभवी चिकित्सक अपनी सेवाएं देंगे। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, यह कदम ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने की दिशा में एक बड़ा प्रयास है। इससे न केवल मरीजों को बाहर जाने की आवश्यकता कम होगी, बल्कि समय और आर्थिक बचत भी होगी। वरिष्ठ चिकित्सकों की उपलब्धता से स्थानीय नागरिकों में खुशी का माहौल है। मरीजों का कहना है कि अब उन्हें बड़े शहरों में जाकर महंगे इलाज कराने की आवश्यकता नहीं होगी। यह पहल राजनांदगांव के नागरिकों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं में एक बड़ा मील का पत्थर साबित हो रही है।

इंडियन मेडिकल एसो. द्वारा डॉ. मेजर हरीश ग्रोवर को श्रद्धांजलि अर्पित

राजनांदगांव (दावा)। इंडियन मेडिकल एसोसिएशनसेशन द्वारा डॉ. मेजर हरीश ग्रोवर को श्रद्धांजलि अर्पित की। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सभी सदस्यों ने घर पर आकर डॉक्टर मेजर हरीश ग्रोवर के परिवार को हौसला दिया वह एक शोक पत्र एसोसिएशन अध्यक्ष डॉ. एम.के. दिवाकर सचिव डॉ नरेंद्र गांधी द्वारा डॉ. ग्रोवर के पुत्र डॉ. जुबिन ग्रोवर व वीणा ग्रोवर को सौंपा तथा अपनी संवेदना जताई। श्रद्धांजलि देने वालो में डॉ. अरुण शंकर दीक्षित, डॉ. उत्तम कोठारी, डॉ. प्रकाश सदानी, डॉ. भागचंद जैन, डॉ.एस.चेलानी, डॉ. श्रीमती इंदिरा चिलानी, डॉ. मैडम मधु भदोरिया, डॉ. अलीम सिद्दीकी, डॉ. करतार सिंह, डॉ.मोन अब्राहम, डॉ. उत्तम चावड़ा, डॉ. विजय उइके, डॉ.विक्रम बत्रा, डॉ.दीपक वर्मा, डॉ. सी.एस. महोबे, डॉ.सुरभि महोबे, डॉ. अनिमेष गांधी व ग्रोवर परिवार की बेटी डॉ. सुगंध गांधी सबने डॉ. ग्रोवर के चित्र पर फूल अर्पित करके अपनी श्रद्धांजलि दी। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में बहादुर अली, सुरेश एच लाल, किशोर बेला वाला, नरेश डकालिए, मोहन सिंह धल्ला, अंजू अल्वी आदि उपस्थित थे।

dts श्री कृष्णा (एयरकुल) में
शानदार दूसरा सप्ताह | रोजाना 3 खेलों में
बाल्कनी की एडवांस बुकिंग प्रारंभ है।
समय : 11.30, 3.15 व 8 बजे रात्रि
फिल्म की लम्बाई अधिक होने के कारण समय का ध्यान रखें
पुष्पा 2
कलाकार - अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदाना, फहाद फाज़िल आदि

ऑनलाईन बुकिंग paytm & bookmyshow.com

paytm book my show
SILVER SCREEN MULTIPLEX
05th Dec To 12th Dec 2024
Silver Screen

Pushpa The Rule 2 -
09:45am, 10:00am, 10:15am,
01:30pm, 01:45pm, 02:00pm,
05:15pm, 05:30pm, 05:45pm,
09:00pm, 09:15pm and 09:30pm
Sumeet Mandi Mall, Rajnandgaon (C.G) 8085600200

खरमास लगते ही शादी-व्याह व मांगलिक कार्यों में लगेगा विराम

15 तक शादी-विवाह के कार्यक्रमों की रहेगी धूम, आज शादियों की रहेगी भरमार

राजनांदगांव (दावा)। देव उठनी एकादशी पर्व पर तुलसी विवाह होने के साथ ही शादी-विवाह व अन्य मांगलिक आयोजन के द्वार खुल गए थे। इस बीच नवंबर माह की 12 तारीख से लेकर दिसंबर माह की 15 तारीख तक बड़ी संख्या वैवाहिक आयोजनों के मुहुर्त बने रहे। इस दौरान बड़ी मात्रा में शादियां, सगाई व शुभ मांगलिक आयोजन संपन्न किए गए। इससे शहर का बाजार गुलजार रहा।

शादी-विवाहों के चीजों की जमकर खरीदी की गई। अब 16 दिसंबर से खर मास लगने के कारण इसमें विराम लगने जा रहा है। वैसे आज 13, 14 से लेकर 15 दिसंबर तक वैवाहिक आयोजन के शुभ मुहूर्त बने हुए हैं। इससे वैवाहिक आयोजनों की धूम बनी रहेगी। जगह-जगह शादी-विवाह व मांगलिक आयोजनों के रिसेप्शन कार्यक्रमों की भरमार होने से ठंड के दिनों में लोगों को सोचना पड़ रहा है कि किस शादी-व्याह के आयोजन में जाएं और किसे मिस करें। बहर हाल अभी दो दिनों तक वैवाहिक आयोजनों की भरमार होने की वजह से लोगों के समक्ष आपाधापी की स्थिति बनी रहेगी। इस दौरान वर-वधुओं को गिफ्ट आइटम देने सहित अन्य चीजों खरीदी किए जाने से बाजार गुलजार बना रहेगा।

खर मास में शुभ कार्यों की वर्जना

खर मास साल का वह समय होता है जिसमें कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य करना वर्जित होता है। यह साल मे दो बार आता है। हिंदू धर्म कू पंचांग अनुसार साल का पहला खर मास अप्रैल में जबकि दूसरा खर मास दिसंबर के महिने में आता है। ज्योतिषी दिवाकर बाजपेई के अनुसार हिंदू पंचांग की गणना के मुताबिक 15 दिसंबर 2024 को जब सूर्य देव धनु राशि में प्रवेश करेंगे तब खर मास की शुरुआत हो जाएगी। सूर्य देव धनु राशि में लगभग एक माह रहेंगे और जब धनु से निकलकर अगली राशि मकर में में प्रवेश करेंगे तो कर मास खत्म हो जाएगा।

सूर्य 14 जनवरी को मकर राशि में प्रवेश करेंगे इस दिन पूरे भारत भर में मकर संक्रान्ति का पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। उन्होंने बताया कि सूर्य जब देव गुरु बृहस्पति की राशि धनु और मीन राशि में प्रवेश करते हैं तो इस दौरान वह अपने गुरु की सेवा राशि मे रहते है। ऐसे में सूर्य का प्रभाव कम हो जाता है। साथ ही सूर्य की वजह से गुरु ग्रह का बल भी कमजोर होता है। इस कारण से दो प्रमुख ग्रहों की उर्जा में कमी आने के कारण इसके स्थायित्व में कमी आ जाती है।

श्री बाजपेई ने बताया कि शुभ और मांगलिक कार्यों में सूर्य और गुरु का बली होना जरूरी होता है। इसी वजह से खर मास के दौरान मांगलिक कार्य फलित नहीं होते इसलिए इसे अशुभ माना गया है और शुभ एवं मांगलिक कार्यों की वर्जना की गई है। बताया जाता है कि कर मास के महिने में पूजा-पाठ, भजन-कीर्तन, तीर्थ यात्रा, मंत्र जाप, भागवत गीता, रामायण पाठ और भगवान विष्णु, भगवान शिव का ध्यान लगाने आराधना करने से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं।

आईबी ग्रुप के प्रोत्साहन से उपांशु राव ने नेशनल गेम्स में तीरंदाजी में हासिल किया तीसरा स्थान

राजनांदगांव (दावा)। गुजरात में आयोजित स्कूल गेम्स के नेशनल में प्रतिभावान तीरंदाजी के खिलाड़ी उपांशु राव ने तीसरा स्थान हासिल कर केवल राजनांदगांव ही नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ राज्य को राष्ट्रीय स्तर पर किया गौरवान्वित किया है। उपांशु राव के स्कूल नेशनल गेम्स में गोल्ड मेडल हासिल करने पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉ.रमन सिंह, आई बी ग्रुप के एम.डी.बहादुर अली, आई जी दीपक झा, कलेक्टर संजय अग्रवाल, एस पी मोहित गर्ग ने खिलाड़ी उपांशु को बधाई दी है।

खिलाड़ी के प्रशिक्षण के लिए आईबी ग्रुप ने की थी 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता

उल्लेखनीय है कि राजनांदगांव पुलिस लाइन में पुलिस विभाग एवं अभिलेख वेल फेयर फाउंडेशन के सहयोग से उपांशु निःशुल्क तीरंदाजी खेल का प्रशिक्षण ले रहा है। अपनी खेल प्रतिभा और कुशल प्रशिक्षकों के मार्गदर्शन में उसने इस मुकाम को हासिल किया है। आर्चरी खेल में महंगे आधुनिक उपकरणों की वजह से अधिकांश खिलाड़ी इसकी व्यवस्था नहीं कर पाते हैं।

ऐसे में इन खिलाड़ियों की प्रतिभा को तरासने के लिए आईबी ग्रुप द्वारा खिलाड़ियों को आधुनिक उपकरण प्रदान किए गए हैं। तीरंदाजी की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरण के लिए आईबी ग्रुप ने 10 लाख रुपए की सहायता भी दी है। आईबी ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर बहादुर अली की सहायता से मिले संसाधनों से ही उपांशु ने प्रैक्टिस कर उसने अपने इस खेल को तराशा और स्कूल नेशनल गेम्स में देश भर से पहुंचे 1200 खिलाड़ियों में से तीसरा स्थान हासिल किया है।

दीक्षा और विक्रम का चयन राष्ट्रीय योगासन खेल प्रतियोगिता में

राजनांदगांव (दावा)। शहर की प्रतिभावान महिला योग खिलाड़ी दीक्षा ताम्रकार और राजनांदगांव जिले के ही पुरुष योग खिलाड़ी विक्रम वर्मा का चयन महात्मा गांधी स्टेडियम, तुमकुर कर्नाटक में आयोजित राष्ट्रीय योगासन खेल प्रतियोगिता के लिए हुआ है।

दोनों खिलाड़ी शहर के योगाचार्य किशोर माहेश्वरी से कर रहे हैं प्रशिक्षण प्राप्त

दोनों खिलाड़ी उक्त राष्ट्रीय प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगे। दोनों ही खिलाड़ी शहर के योगाचार्य किशोर माहेश्वरी के कुशल मार्गदर्शन में नियमित रूप से प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर की उक्त योगासन खेल प्रतियोगिता में 32 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 1500 खिलाड़ियों के भाग लेने की संभावना है। दीक्षा और विक्रम ने गत 22 से 25 नवंबर को रायगढ़ में आयोजित राज्य स्तरीय योगासन खेल प्रतियोगिता में क्रमशः रजत पदक और कांस्य पदक जीतकर राष्ट्रीय योगासन खेल प्रतियोगिता के लिए अपना स्थान पक्का किया था।

उनकी इस उपलब्धि के लिए छत्तीसगढ़ योगासन के प्रमुख पदाधिकारी डोमेंद्र देवांगन, राजनांदगांव योगासन खेल जगत के गणमान्य नागरिकों, मित्रों एवं परिजनों ने शुभकामनाएं प्रेषित की है।

संस्कार श्रद्धांजलि समिति ने दृष्टिहीन कार्यक्रम हेतु पूर्व सांसद अभिषेक सिंह से की मुलाकात

राजनांदगांव (दावा)। संस्कार श्रद्धांजलि समिति द्वारा दृष्टिहीन कार्यक्रम आयोजित करने की योजना के अंतर्गत समिति के सदस्यों ने पूर्व सांसद अभिषेक सिंह से मुलाकात की। इस बैठक में कार्यक्रम की रूपरेखा और संभावित सहयोग पर चर्चा हुई।

पूर्व सांसद अभिषेक सिंह ने समिति की इस पहल की सराहना करते हुए इसे समाज के लिए अत्यंत उपयोगी बताया। उन्होंने समिति को हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया और कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रम दृष्टिहीन व्यक्तियों को आत्मनिर्भर बनने और समाज में अपना योगदान देने के लिए प्रेरित करते हैं।

समिति के सदस्यों ने बताया कि यह कार्यक्रम दृष्टिहीन व्यक्तियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने और उन्हें प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है। इसमें शिक्षा, रोजगार और आत्मनिर्भरता पर केंद्रित विभिन्न सत्र आयोजित किए जाएंगे। सभी मिलकर कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सामूहिक प्रयास करने का संकल्प लिया।

रेलवे मजदूर कांग्रेस यूनियन की जीत पर भारतीय कल्याण कर्मचारी संघ ने दी शुभकामनाएं

डोंगरगढ़ (दावा)। अखिल भारतीय सफाई कर्मचारी कल्याण संघ ट्रेड यूनियन डोंगरगढ़ के शहर अध्यक्ष नरेश करसे ने रेलवे मजदूर कांग्रेस यूनियन डोंगरगढ़ की जीत पर नवनिर्वाचित पदाधिकारी में शामिल अनिल पोद्दार और उनकी पूरी टीम को बधाई और शुभकामनाएं दीं है। श्री करसे ने कहा है कि, यह जीत न केवल रेलवे मजदूरों के लिए बल्कि पूरे डोंगरगढ़ शहर के लिए गर्व की बात है। यह जीत हमारे संघर्ष और एकता की जीत है। हमें उम्मीद है कि यह जीत रेलवे मजदूरों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाएगी। इस जीत के साथ, रेलवे मजदूर कांग्रेस यूनियन डोंगरगढ़ को मजबूती मिलेगी और वे रेलवे मजदूरों के हितों की रक्षा करने में और अधिक प्रभावी ढंग से काम कर पाएंगे।

नगर पालिका आम निर्वाचन 2024, निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन

राजनांदगांव (दावा)। नगर पालिका आम निर्वाचन 2024 के निर्वाचक नामावली तैयार व पुनरीक्षण कार्यक्रम अनुसार 11 दिसम्बर 2024 को नगरीय निकाय क्षेत्र नगर पालिक निगम राजनांदगांव, नगर पालिका परिषद् डोंगरगढ़, नगर पंचायत डोंगरगांव, छुरिया, लाल बहादुर नगर में नियत स्थान पर निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन कर लिया गया है।

कार्यालय कलेक्टर (स्थानीय निर्वाचन) राजनांदगांव से प्राप्त निर्वाचक नामावली के अंतिम प्रकाशन सूची अनुसार नगर पालिका अंतर्गत कुल मतदाताओं की संख्या 1 लाख 79 हजार 797 है, जिसमें पुरूष मतदाताओं की संख्या 86 हजार 792, महिला मतदाताओं की संख्या 93 हजार एवं अन्य मतदाताओं की संख्या 5 है। नगर पालिक निगम राजनांदगांव के 51 वार्डों में मतदाताओं की संख्या 1 लाख 33 हजार 677 है, जिसमें पुरूष मतदाताओं की संख्या 64 हजार 461, महिला मतदाताओं की संख्या 69 हजार 214 एवं अन्य मतदाताओं की संख्या 2 है। नगर पालिका परिषद् डोंगरगढ़ के 24 वार्डों में मतदाताओं की संख्या 27 हजार 567 है, जिसमें पुरूष मतदाताओं की संख्या 13 हजार 386, महिला मतदाताओं की संख्या 14 हजार 178 एवं अन्य मतदाताओं की संख्या 3 है। नगर पंचायत डोंगरगांव के 15 वार्डों में मतदाताओं की संख्या 11 हजार 948 है, जिसमें पुरूष मतदाताओं की 5 हजार 769 एवं महिला मतदाताओं की संख्या 6 हजार 179 है। नगर पंचायत छुरिया के 15 वार्डों में कुल मतदाताओं की संख्या 3 हजार 65 है, जिसमें पुरूष मतदाताओं की संख्या 1 हजार 438 एवं महिला मतदाताओं की संख्या 1 हजार 627 है। नगर पंचायत लाल बहादुर नगर के 15 वार्डों में कुल मतदाताओं की संख्या 3 हजार 540 है, जिसमें पुरूष मतदाताओं की संख्या 1 हजार 738 एवं महिला मतदाताओं की संख्या 1 हजार 802 है।

आम सूचना

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, कि मैं बल्लूराम पिता महेतर गौर कृषक ग्राम कटेंगाटोला, रा.नि.मं. खोभा तहसील छुरिया जिला-राजनांदगांव के शामिलात खाते में खसरा नंबर-99/1 रकबा 1.2260 हे., खसरा नंबर-66 रकबा-0.0400 हे., खसरा नंबर 99/2 रकबा-1.2140 हे., कृषि भूमि ग्राम कटेंगाटोला प.ह.नं.- 05, रा.नि.मं. छुरिया, तहसील छुरिया जिला राजनांदगांव में संयुक्त खाते में दर्ज चले आ रही है, उक्त भूमि का विभाजन नहीं हुआ है, जिस पर मेरे अलावा अन्य सभी सहखातेदार लक्ष्मण सिंह, नंदकुमार गौर, प्यारेलाल गौर, भूपेन्द्र गौर, खूशबू गौर का नाम सहखातेदारों के रूप में संयुक्त रूप से दर्ज चला आ रहा है, इस प्रकार सभी का उक्त भूमि पर समान स्वत्व, हक और अधिकार है तथा किसी भी सहखातेदार को उक्त भूमि के संबंध में विक्रय करने हेतु कोई भी संव्यवहार अन्य सहखातेदार के सहमति के बगैर नहीं है।

मुझे ऐसा ज्ञात हुआ है कि, उक्त भूमि के सहधारक नंदकुमार गौर द्वारा बिना मेरी या अन्य सहखातेदारों की सहमति और अनुमति के बगैर उक्त भूमि को विक्रय किये जाने हेतु अन्य लोगों को विक्रय करने के लिये प्रयत्नशील है। जिसका उसे कोई हक या अधिकार नहीं है और उसके द्वारा किया गया ऐसा विक्रय संव्यवहार पूर्णतः विधि विरूद्ध और अवैध है। इसके उपरांत भी यदि कोई व्यक्ति उपरोक्त भूमि को क्रय करने के संबंध में नंदकुमार पिता मेहतर गौर कृषक कटेंगाटोला से कोई संव्हहार करता है, तो ऐसा संव्यवहार शून्य और अवैध है और वह उत्पन्न कानूनी परिणामों के लिये उत्तरदायी होगा। तथा मेरे द्वारा इस संबंध में आवश्यक कानूनी कार्यवाही भी प्रारंभ कर दी गई है। **तदानुसार सूचना जाने।**

राजनांदगांव (छ.ग.)
दिनांक :- 12.12.2024

भवदीय
बल्लू राम पिता महेत्तर गौर
हाल निवासी-गुंगेरी नवागांव, पोस्ट व तहसील डोंगरगांव जिला राजनांदगांव (छ.ग.)
मो.नं.- 7805915543

बेचना है
(1) मोतीपुर से ढाबा रोड पर ढाबा में 76 डिसमिल जमीन बेचना है।
(2) रामनगर में स्कूल के पास 14 डिसमिल बेचना है।
(3) 21 ईंट बनाने वाली हैवी फ्लाई एश ब्रिक्स मशीन बेचना है।
- : संपर्क :-
मनोज सिन्हा मोतीपुर राजनांदगांव
7697225949, 7999580145, 6267688665

शुभांक

अनुमानित

बी. के
2-4-6
114-6 359-7

राजधानी
5-7-9
256-3 569-0

चेतावनी:-इस पत्र में प्रकाशित सर्वत्र शुभ राशियां ज्योतिष एवं ग्रह नक्षत्र के आधार पर धारणा मात्र है। इसका सट्टे आदि से कोई संबंध नहीं है, दुरूपयोग न करें। दुरूपयोग करने पर प्रकाशक की कोई जवाबदारी नहीं होगी। -सम्पादक

प्लॉट बेचना है
राजनांदगांव पेन्ड्री में नेशनल हाईवे से 100 मीटर की दूरी पर डायवर्टेड आवासीय प्लॉट
रोड, नाली, बिजली की सुविधा उपलब्ध
- : संपर्क :-
62641-56342

सुशासन का 1 साल
छत्तीसगढ़ हुआ खुशहाल
25 रजत जयंती वर्ष
छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ शासन
जनादेश परब
पर प्रदेश की जनता का
कोटि-कोटि आभार...
13 दिसम्बर 2024
श्री जगत प्रकाश नड्डा
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
रसायन एवं उर्वरक मंत्री, भारत सरकार
श्री विष्णु देव साय
माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़
हमने बनाया है, हम ही सँवारेंगे
हमसे जुड़ने के लिए
QR स्कैन करें
ChhattisgarhCMO
DPRChhattisgarh
www.dprcg.gov.in
छत्तीसगढ़ जनसंपर्क

संवाद:- 42399/25

अनमोल दावा

> जितना हो सके खामोश रहना ही अच्छा हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह इंसान से उसकी जुबान ही करवाती हैं।

कांग्रेस के भविष्य पर नए सवाल, राहुल और प्रियंका की बढ़ेंगी मुश्किलें

कांग्रेस ने बड़ी संख्या में महिला उम्मीदवार भी उतारे पर जोरदार प्रचार अभियान के बावजूद कांग्रेस 402 में से मात्र दो विधानसभा सीटें ही जीत पाई। कांग्रेस का मत प्रतिशत भी ढाई प्रतिशत के आसपास रहा। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की हालत लोकसभा चुनाव में सपा से गठबंधन से सुधरती दिखी पर हाल के नौ विधानसभा उपचुनाव में सपा ने उसके लिए एक भी सीट नहीं छोड़ी।

प्रियंका गांधी वाड्रा की भी संसदीय पारी का आगाज हो गया, पर इसी दौरान कांग्रेस की नियति को लेकर नए सिरे से सवाल उठ खड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश के कांग्रेसी दशकों नारा लगाते रहे- अमेठी का डंका, बेटी प्रियंका, मगर वह केरल की वायनाड सीट से संसद पहुंचीं। वायनाड में उपचुनाव की नौबत इसलिए आई कि इस बार रायबरेली और वायनाड, दो सीटों से जीते राहुल ने पारिवारिक सीट रायबरेली रखने का फैसला किया।

राजस्थान से राज्यसभा पहुंचने से पहले सोनिया गांधी रायबरेली से ही लोकसभा चुनाव जीतती रहीं। उनसे पहले पति राजीव गांधी रायबरेली का प्रतिनिधित्व करते रहे। फिरोज गांधी और इंदिरा गांधी भी रायबरेली से लोकसभा के लिए चुने जाते रहे। सोनिया गांधी द्वारा इस बार संसद जाने के लिए राज्यसभा का रास्ता चुने जाने के बाद अटकलें थीं कि राहुल वायनाड और अपनी पुरानी सीट अमेठी से लड़ेंगे, जबकि प्रियंका रायबरेली से अपनी संसदीय राजनीति की शुरुआत करेंगी, लेकिन कांग्रेस ने चौंकाने वाला निर्णय लिया। परिवार और पार्टी के निष्ठावान किशोरी लाल शर्मा को अमेठी से स्मृति इरानी के विरुद्ध चुनाव में उतारा, जबकि राहुल के लिए अपेक्षाकृत सुरक्षित रायबरेली को चुना। कांग्रेस का दांव सफल भी रहा। रायबरेली से राहुल तो जीत ही गए, किशोरी लाल ने भी अमेठी से स्मृति इरानी को हरा कर सबको चौंका दिया। राहुल और किशोरी लाल, दोनों के चुनाव प्रचार और प्रबंधन की कमान प्रियंका गांधी ही संभालती नजर आई थीं।

जब राहुल ने वायनाड छोड़ने का एलान किया तभी उपचुनाव में प्रियंका के प्रत्याशी होने का फैसला हो गया था। राहुल ने कहा था कि वायनाड के मतदाताओं को उनकी कमी महसूस न हो, इसलिए वहां से होने वाले उपचुनाव में बहन प्रियंका गांधी कांग्रेस उम्मीदवार होंगी। बेशक वायनाड से प्रियंका की जीत में किसी को संदेह नहीं था, लेकिन भाई राहुल से भी ज्यादा अंतर से जीत हासिल कर उन्होंने चौंकाया।

प्रियंका चार लाख से भी ज्यादा वोटों के अंतर से जीती हैं। उनका मुकाबला सत्तारूढ़ एलडीएफ प्रत्याशी से हुआ, जबकि भाजपा की उम्मीदवार तीसरे स्थान पर रहीं। हालांकि प्रियंका गांधी की संसदीय पारी का आगाज भले ही अभी हुआ है, लेकिन वह राजनीति में नई नहीं हैं। खुद प्रियंका गांधी ने बताया कि वह 35 साल से राजनीति में सक्रिय हैं और उन्होंने 1989 में 17 साल की उम्र में पहली बार अपने पिता राजीव गांधी के लिए चुनाव प्रचार किया था। सभी जानते हैं कि रायबरेली और अमेठी में वह मां और भाई के लिए अतीत में भी चुनाव प्रबंधन और राजनीतिक कामकाज देखती रही हैं। प्रियंका की संसदीय राजनीति का आगाज ऐसे समय हुआ है, जब छह महीने पहले लोकसभा चुनाव में पुनरुत्थान के संकेत मिलने के बाद कांग्रेस फिर पस्तहाल नजर आ रही है। अक्टूबर में हाथ में आती दिख रही हरियाणा की सत्ता फिसल गई, तो जम्मू-कश्मीर में मित्र दल नेशनल कांफ्रेंस की बड़ी जीत के बावजूद कांग्रेस मात्र छह सीटों पर सिमट गई। फिर नवंबर में महाराष्ट्र में चुनावी पराभव का नया कीर्तिमान बनाया तो झारखंड में अनुकूल माहौल के बावजूद कांग्रेस सीटें बढ़ाने में नाकाम रही।

भाजपा से सीधे मुकाबले में कांग्रेस के लगातार लचर प्रदर्शन और उसके बावजूद आत्मकेंद्रित अहंकारी व्यवहार के चलते अब गठबंधन में भी उसके विरुद्ध स्वर मुखर होने लगे हैं। घटक दलों के नेता गठबंधन की कमान ममता बनर्जी को देने की पैरवी कर रहे हैं। जून में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बने राहुल गांधी की नेतृत्व क्षमता पर भी मित्र दल ही सवाल उठाने लगे हैं। बेशक प्रियंका गांधी बेहतर वक्ता मानी जाती हैं, लेकिन उनके साथ ही गांधी-नेहरू परिवार के तीनों सदस्यों के संसद में आ जाने से वंशवाद के मुद्दे पर भाजपा के आक्रमण को जो तेज धार मिलेगी, उससे बचाव कांग्रेस के लिए आसान नहीं होगा।

ऐसे में यह स्वाभाविक सवाल अनुत्तरित ही है कि कांग्रेस आलाकमान या कहें कि खुद परिवार ने यह रास्ता क्यों चुना? आखिर प्रियंका राजनीति में तो थी हीं। सालों पहले ही सीधे कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव बनाई जा चुकी थीं। वह उत्तर प्रदेश सरीखे बड़े राज्य की प्रभारी थीं। हालांकि स्टार प्रचारक होने के बावजूद वह कांग्रेस को बड़ी चुनावी सफलता नहीं दिलवा पाईं। 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में उन्होंने चर्चित नारा दिया था कि 'लड़की हूं, लड़ सकती हूं।' कांग्रेस ने बड़ी संख्या में महिला उम्मीदवार भी उतारे, पर जोरदार प्रचार अभियान के बावजूद कांग्रेस 402 में से मात्र दो विधानसभा सीटें ही जीत पाई। कांग्रेस का मत प्रतिशत भी ढाई प्रतिशत के आसपास रहा। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की हालत लोकसभा चुनाव में सपा से गठबंधन से सुधरती दिखी, पर हाल के नौ विधानसभा उपचुनाव में सपा ने उसके लिए एक भी सीट नहीं छोड़ी। अब परिवार के तीनों ही सदस्य संसद में पहुंच जाने से वंशवाद के मुद्दे पर भाजपा का आक्रमण तो और तेज होगा ही, कांग्रेस में राहुल के समानांतर एक और सत्ता केंद्र बनने का खतरा भी रहेगा।

कल्लू के बहाने जग के अफसाने

समीक्षक : विजय वर्तमान, भिलाई, छत्तीसगढ़

समीक्षाधीन पुस्तक - 'कल्लू कुकुर के पावर' (हास्य व्यंग्य संग्रह)

साहित्य के माध्यम से समाज को दर्पण दिखाने का काम साहित्यकार अनादि काल से करते आ रहे हैं। अत्याधुनिक होते समाज में लेखकों का यह दायित्व और भी अधिक बढ़ गया है। विभिन्न धार्मिक उत्सवों को राग - रंग का अवसर समझने की सर्वव्यापी दुः मानसिकता मानव समुदाय के लिए घातक होती जा रही है। इसका त्वरित विरोध करने हेतु मानवीय जिम्मेदारी के तहत आगे आने वाले लेखकों में विजय मिश्रा ''अमित'' और हाल ही में प्रकाशित उनका व्यंग संग्रह ''कल्लू कुकुर के पावर'' काफी चर्चित है। इसमें समाहित प्राय: सभी लेख समाज की सफाई के प्रचण्ड आग्रह के साथ लिखे गए हैं। विजय जी बेहद स्पष्ट इरादों और विचारों वाले लेखक हैं । नैतिकता उनका मूल स्वर है। वे समाज में व्याप्त अनैतिकताओं, विसंगतियों, विडम्बनाओं, क्षुद्रताओं से मुठभेठ करते रहने की मुद्रा में होते हैं।



वे समाज को सर्वांग सुंदर, सभ्य, अनुशासित और तार्किक देखना चाहते हैं। अपनी असहमतियों को मन मसोसकर अपने भीतर ही जब्त कर लेने के वे पक्षधर नहीं हैं। समाधान हेतु तत्काल सक्रिय होने की उनकी मुद्रा स्पष्ट दिखाई देती है। इस दृष्टि से छत्तीसगढ़ी हास्य - व्यंग्य संग्रह ''कल्लू कुकुर के पावर'' बहुत पॉवरफुल कृति है ।

विजय जी की लेखनी सिद्ध करती है कि मानव जीवन में हर - पल हास्य, करुणा, और व्यंग्य विद्यमान हैं। जीवन के नितांत मामूली प्रतीत होने वाले प्रसंगों के भीतर से वे रोचक और मार्मिक दृश्य निकाल लेते हैं। उनकी रचनाओं में शेरों, कविताओं और मुहावरों का लाजवाब प्रयोग होता है। सटीक, सार्थक और मजेदार उपमाओं का उनका प्रयोग चकित करता है और सामग्री को पठनीय बनाता है।

वे विषय को आगे बढ़ाने हेतु संवाद - शैली का प्रयोग करते हैं। जीव का जीव के साथ, जीव का निर्जीव के साथ, निर्जीव का निर्जीव के साथ होने वाले संवाद नाटक के संवादों जैसे लगते हैं। यह विजय जी की रंग-मंच-जीविता को भी प्रमाणित करता है। कैलेंडर, गिलास, सफेद बाल, गुलाल, गणेश, दुर्गा, रावण, मास्क, मलेरिया, सीढियां, यमदूत, मेंढकी , जूता, मोबाइल, नीबू-मिर्च, कुकुर, प्याज, चूहा, पानी, कोरोना आदि इनके पात्र हैं।

रोजमर्रा के जीवन से विषयों को चुनना और उन्हें परवान चढ़ा लेना सामान्य बात नहीं है। अतिरिक्त संवेदनशीलता के बिना यह संभव नहीं है। विजय जी की संवेदना हास्य, व्यंग्य और करुणा के साथ पगी हुई है। उनके बेजुबान पात्रों के संवाद कहीं भी असहज नहीं लगते। विजय जी बेहद मासूमियत के साथ विषय को प्रारंभ करते हैं फिर हौले से गम्भीर मर्म तक ले जाते हैं। विषयों की विविधता विजय जी की विशेषता है।

इस किताब में 33 लघु लेख संकलित हैं । प्रत्येक लेख में एक भिन्न समस्या पर समाधान - मूलक बात कही गयी है। ''चिखला'' के माध्यम से राजनीति पर प्रहार करना, राजनेताओं के मुँह पर चिखला पोत दिये जाने से चिखला का ही अपमान हो जाने के अहसास का करुण हास्य के साथ निर्वाह करना अद्भुत है। नया वर्ष आने पर पुराने कैलेंडर की पीड़ा की अभिव्यक्ति, सार्वजनिक प्याऊ में गिलास का चेन से बंधे रहने की यंत्रणा, सिर में काले बालों के बीच यकायक सफेद बालों के दिखने को धान के खेत में करगा की उपस्थिति जितना असहनीय बताना, गुलाल की करुण कहानी, मास्क को मनुष्य की अमानुषिक प्रवृत्ति की उपज बताना, नकली बाबाओं से सावधान करने हेतु अपनी विशिष्ट शैली में आगाह करना, मलेरिया को लेकर निर्मल हास्य पैदा करना जैसे विषय उनकी पारखी नजरों की गवाही देते हैं।

मुफ्त में माँगकर अखबार पढ़ने वालों पर ऐसा लिखा कि ''वाह, क्या बात है'' जैसी दाद निकलवा लेना, रिश्वतखोरों की ठहाकेदार पिटायी करना, सार्वजनिक स्थलों की सीढ़ियों पर थूकने वालों की नीचता पर खौलना, यमदूतों की भर्ती जैसी नयी कल्पना में कुकर्मियों, पाखंडियों, समाजद्रोहियों को धिक्कारने हेतु नयी तरकीब ईजाद करना, समाज को नाना प्रकार से चूसने वालों पर लानतें भेजना, वर्षा बुलाने हेतु मेंढक - मेंढकी - विवाह जैसे अतार्किक अंधविश्वास को खारिज करके पर्यावरण - संरक्षण और संवर्धन को वर्षा हेतु शाश्वत उपाय बताना, सर्वव्यापी मोबाइल और मनुष्य की झूठी फितरत का खुलासा करना, नीबू - मिर्च के टोटके को अंधविश्वास के अलावा फिजूलखर्ची से जोड़ने की नयी सोच, जूते की बहुआयामी, नानाविध उपयोगिता का मजेदार खुलासा आदि बातें विषय की विविधता की पुष्टि करती हैं ।

गली-गली में खुल चुके अंग्रेजी माध्यम स्कूलों को लेकर बेहद अच्छी बातें करना -- ''अंग्रेजी ल इहां हिंदी म पढ़ाय जाथे'' --जैसे सच्चे वक्तव्य, परीक्षा हॉल में आज के किशोरों का आतंक और घुटने टेके गुरुजन की कारुणिक विडम्बना, चुनाव में विभिन्न दलों के रावणों के रोचक घोषणापत्रों में नयी दृष्टि, मंहगे प्याज से प्रभावित समाज में रोचक दृश्यों का जन्म, अन्न की बर्बादी में सरकारी लापरवाही का चूहों द्वारा खुलासा, जलसंरक्षण हेतु पानी के साथ रोचक - प्रेरक संवाद, कोरोना - काल में सर्वप्रचलित अंग्रेजी शब्दों की प्रचुरता पर ध्यानाकर्षक लेख, राजनीति की संवेदनहीनता और और जनता की दीनता का बार - बार वास्तविक - मार्मिक चित्रण, बधाई लेने - देने के नफा - नुकसान पर चुटीली बातें, घर में चोरी हो जाने पर भरपायी के लिए मुहल्ले की महिलाओं की बुद्धि- मत्ता की मौलिक कल्पना आदि -आदि से सिद्ध होता है कि विजय जी प्रचण्ड सरोकार से संपृक्त, खुली आँखों वाले, सजग, चैतन्य कलमकार हैं ।

इन लेखों को पढ़ते समय मुझे बार - बार यह खयाल आया कि इनका नाट्य - रूपांतरण करके विद्यालयों में विभिन्न अवसरों पर मंचित किया जाना हमारी नयी पीढ़ी के लिए बेहद प्रभावी सिद्ध हो सकता है। मुझे यह भी लगता रहा कि यह किताब हमारे देश के शिक्षकों द्वारा अवश्य पड़ी जानी चाहिए क्योंकि इसमें बच्चों को जिम्मेदार, सुसंस्कृत , नीतिप्रिय नागरिक बनाने हेतु पर्याप्त सामग्री है ।

यह किताब छत्तीसगढ़ी साहित्य में विजय जी का पॉवरफुल योगदान है।

लेखक - विजय मिश्रा 'अमित'
लोक-हिन्दी रंगकर्मी
एम-8, सेक्टर-2, अग्रोहा सोसायटी, पोआ,
सुंदर नगर, रायपुर छत्तीसगढ़ 492013
मो. 98931-23310

विचार सरिता

मन में बसे हैं राम - 340 : श्री राम को नाव में बैठाने को लेकर केवट के मन में है हिचक

डॉ. योगेंद्र कुमार पांडेय

केवट ने श्री राम की ओर देखा। वह उनके मुखमंडल पर तेज और हाथ में धनुष देखकर समझ गया कि वे अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र श्री राम हैं। उनके साथ लक्ष्मण जी और सीता जी को देखकर केवट ने कहा,

''प्रणाम अतिथिगण ! मैं समझ गया हूं कि आप सब अयोध्या से आए हैं और अयोध्या राजपरिवार के सदस्य हैं।''

श्री राम ने केवट के अभिवादन का उचित उत्तर देते हुए कहा, ''आपने उचित समझा है श्रमवीर। मैं राम हूं।ये मेरे भ्राता लक्ष्मण और ये मेरी धर्मपत्नी सीता।''

''यह तो मेरा सौभाग्य है कि जिनकी वीरता की गाथाएं जनपद के हर घर में प्रसिद्ध हो रही हैं, वे इस क्षेत्र में आए हैं। मुझे आपके दर्शन हो गए, यह मेरे लिए परम सुख है। क्या आप लोग नदी तट पर मां गंगा की पूजा के लिए आए हैं या कोई और उद्देश्य है?'' केवट ने बड़ी चतुरता के साथ श्री राम के आगमन का उद्देश्य जानना चाहा।

''त्रिपथगामिनी गंगा की पूजा हम पहले ही कर चुके हैं। हमें नदी पार करना है, इसीलिए नदी तट पर पहुंचे हैं। क्या तुम हमें नदी पार करा दोगे?'' श्री राम ने हंसते हुए पूछा।

थोड़ा हिचकते हुए केवट ने कहा, ''यात्रियों को नदी पार कराना तो मेरा काम ही है लेकिन आप सबको इस स्थिति में देखकर मैं सोच - विचार में पड़ गया हूं।''

निषादराज ने उससे कहा, ''जब तुम्हारी आजीविका ही नदी पार कराना है तो इसमें इतना सोच विचार कैसा? क्या तुम्हें अपना पारिश्रमिक नहीं मिलने की चिंता है?''

''राजन यह आप कैसी बातें कर रहे हैं। मैं उतराई पाने की चिंता नहीं कर रहा हूं। श्री राम को नदी पार कराना तो मेरा सौभाग्य होगा, लेकिन मैं यह सोच रहा हूं कि आप सबके नौका पर बैठने और नाव खोलकर पानी में बढ़ाने के बाद मैं कहीं नाव चलना ही ना भूल जाऊं।

(भगवान श्री राम की प्रेरक गाथा संस्कृत साहित्य में आदि कवि वाल्मीकि और हिंदी साहित्य में अवधी के महाकवि तुलसी से लेकर विश्व की अनेक भाषाओं की शताधिक रामायणों में लिखी गई है। लेखक ने इस रचना में श्री राम की महागाथा के विविध प्रसंगों से कथा प्रवाह की प्रेरणा प्राप्त की है। उन्होंने उन रचनाकारों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए श्री राम के जीवन के विविध प्रसंगों में अनेक स्थानों पर एक साधारण भक्त की अपनी नवीन रचनात्मक कल्पनादृष्टि का भी सहारा लिया है और रामकथा की मौलिक साहित्यिक प्रस्तुति का प्रयत्न किया है।)

शब्द सामर्थ्य -264

(भागवत साहू)

बाएं से दाएं
1. रूचिकर लगने वाली, रूचि के अनुकुल, चुनी हुई 3. राजाओं के बैठने का आसन 6. श्रमिक 7. कार्य, काज 9. वाद्ययंत्र आदि बजाने वाला 10. सहारा, सहायक वस्तु 11. शर्म, लाज, हया 12. मक्खन, माखन 14. श्रीमती राबड़ी देवी इस प्रदेश की मुख्यमंत्री हैं 15. चंद्रमा, रजनीश, चांद 18. पुस्तक 20. अवधि, समय 21. तर्क वितर्क और कहा-सुनी, जबानी झगड़ा 22. सूरत, आकार 23. झुका हुआ, नत।

ऊपर से नीचे
1. पंद्रह दिन का समय, शुक्ल या कृष्ण पक्ष 2. आग बुझाने की मशीन 3. हिंदु विवाहित स्त्री के मांग में भरने का लाल चूर्ण 4. पराजय, माला 5. मुंह ढकने का कपड़ा, घुंघट 8. चंदन, दक्षिण का एक पर्वत 10. व्यवस्थित करना, सजाना, स्वभाव आदि का परिष्कार, शुद्ध संबंधी कृत्य 12. विशालता, बड़प्पन, महान होने का भाव 13. अड़चन, रुकावट 15. जमीन के अंदर गहरा और लंबा रास्ता, अच्छे रंग का 16. बेवकूफ, मूर्ख, अहमक 17. औसत के हिसाब से 18. कृषक 19. अधिक, ज्यादा।

शब्द सामर्थ्य क्रमांक 263 का हल

ज	ल		आ	वा	जा	ही		
मा		खू	ब		दू	र	स्थ	
ना	दा	न		सा	ग		ल	क्ष्य
	न	ख		त	र	ल		
	वी	रा	न			च	ट	क
	र	ब		आ	ज	क	ल	
			आ	ग		दा	ना	
	अ	ग	र	म	ग	र		क्रो
भा	भी		ती	न			व	ध

सू- दोकू क्र. 264

9		8		1		7		
4		6			7		5	
	3			6		8		9
		3			1		6	
5			6			9		
		9		5			3	
3			7		9			1
	5			2		3	9	
1		4			8		7	

नियम
1. कुल 81 वर्ग है,जिसमें 9वर्गो का एक खंड बनता है।
2. हर खाली वर्ग में 1से 9 के बीच का कोई एक अंक भर सकते है।
3. बाएं से दाएं और उपर से नीचे के प्रत्येक कालम,कतार और खंड में 1से9अंक में से किसी भी अंक का इस्तेमाल एक बार ही कर सकते है।

सू-दोकू क्र.263 का हल

7	5	6	4	1	2	8	3	9
3	4	8	6	7	9	2	1	5
1	2	9	5	3	8	7	4	6
2	8	1	9	5	6	4	7	3
6	9	7	2	4	3	5	8	1
5	3	4	7	8	1	9	6	2
8	7	2	1	6	5	3	9	4
4	6	5	3	9	7	1	2	8
9	1	3	8	2	4	6	5	7

कविता

शब्द से शब्द तक

**यह शायरों की दुनिया है, यहाँ शब्दों का खेल,
अगर अर्थ में उलझ गए, तो अनर्थ का मेल।**

**शब्दों की बनावट में, छुपे हैं कई राज़,
हर पंक्ति में बसी है, दिल की आवाज़।**

**यहाँ हर शेर में बसी है, एक अनकही कहानी,
अगर समझने की कोशिश की, तो मिलेगी नादानी।**

**शायरों की दुनिया में, बस दिल से दिल की बात,
अगर अर्थ में उलझ गए, तो खो जाएगी रात।
तो चलो, इस दुनिया में, बस बहते रहो,
शब्दों के इस सागर में, खुद को खोते रहो।**

– गिरीश ठक्कर 'स्वर्गीय'

(आज 13 दिसम्बर ''खोया पाया दिवस'' पर कविता)

// खोया - पाया //

देख लेना पास तुम्हारे, कुछ मेरा रह गया कहीं ?
मैं भी देखूँ पास मेरे, तेरा तो कुछ रह गया कहीं।
संबंधों में साँस रहे बस, मैं कहता न तुम कहते?
जानकर अंजानापन का, भार तो दोनों ही सहते।
जो भी चीजें पास है मेरे, यकीनन लौटा पाऊँगा?
टीस रहेगी सदा-सदा, वक्त बेवक्त याद आऊँगा।
किन नामों किन रूपों में, फिर-फिर आना पड़ता?
कहते सुना लोगों से, आखिरकार चुकाना पड़ता।
यादें भी तुझसा है जिद्दी, मुश्किल कैसे जाऊँगा?
पल में जो सारे सुमन धरे, कभी न लौटा पाऊँगा।
बीत जाती जीवन सारा, पल भर न जीवन पाते हैं।
एक पल में जीवन जीते, वो जाने कैसे जा पाते हैं?
रहस्यमयी न ही कुटिल, नित निश्छल मुस्कान रहे।
खोया कम पाया ज्यादा, जन्मों-जन्म कुर्बान रहे।

रोशन साहू 'मोखला' 7999840942

स्मृतियां 20

स्काउट मास्टर प्रशिक्षण

उस निजी स्कूल में रहते स्काउट मास्टर प्रशिक्षण में डोगरगढ़ जाने का अवसर मिला। वहाँ के उ.मा. शाला में वह कैम्प लगा था। उस 10 दिवसीय प्रशिक्षण से आने के बाद स्कूल में स्काउट दल का गठन किया और शाला में स्काउट की गतिविधियां प्रारंभ हुई। समय- समय पर बहुत सी गतिविधियां आयोजित की जाती थी। बच्चे भी बड़े खुश थे।

डोंगरगढ़ में जाकर स्काउट और एन.सी.सी. में सबसे बड़ा अंतर जो महसूस किया, वह था स्काउट में जहा स्वविवेक से काम करना सिखाया जांता है वहीं एन.सी.सी. में केवल आदेश पालन पर बल दिया जाता है। हुआ यूं कि डोगरगढ़ में प्रशिक्षण के दौरान वन भ्रमण पर ले जाया गया। तब, प्रशिक्षक ने एक पेड़ के नीचे बैठने कहा और मैं तत्काल बैठ गया। इस पर प्रशिक्षक महोदय सुझाव देने लगे उस जगह को पहले साफ कर लें। मैने कहा आपका आदेश है। उसने कहा कुत्ता भी जब किसी जगह बैठता है तो वह अपनी पूंछ से पहले साफ कर लेता है। उनकी बात अच्छी लगी ।

बाद में शासकीय शाला में व्याख्याता होने पर फिर स्काउट का प्रभार मिला। तब, वन भ्रमण / भोज के लिए बच्चों को अम्बागढ़ गुफा ले जाने का अवसर भी मिला। तब ट्रेंकिग के लिए नादिया भी गए थे। जिसमें बच्चों को स्वयं ही मार्ग पता लगाना होता है। उन जगहों पर पहले ही निशान / संकेत लगा/छुपा दिए जाते हैं ।

सन 1972-73 में कवर्धा में अपनी उ.मा. शिक्षा के दौरान एन.सी.सी. का ''ए'' सर्टीफिकेट कोर्स किया था और दुर्ग के विज्ञान महाविद्यालय में ''बी'' और ''सी'' सर्टीफिकेट कोर्स पहले ही कर लिया था। जिससे आज्ञा पालन करने का संस्कार था। बाद में शिक्षक प्रशिक्षक होने पर एन एस एस कैम्प में मुख्य अतिथि/वक्ता के तौर पर बौद्धिक चर्चा सत्र में भागीदार होने का अवसर भी मिला।

ऐसी पाठ्य सहगामी गतिविधियों में सहभागिता से बच्चों में नेतृत्व कौशल विकास के लिए प्रभावी होता हैं।

युगल किशोर तिवारी

राशिफल

मेष – आज दिन की शुरुआत अच्छी रहेगी। जीवनसाथी से कुछ अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है, आज नन्हे मेहमान का अगमन भी आपके जीवन में हो सकता है। घर में खुशी का माहौल बनेगा, आप परिवार वालो के साथ धार्मिक कार्यों में मन लगायेंगें । किसी स्कुल के दोस्तों के साथ पुरानी बाते याद करेंगें।

वृष राशि – आज का दिन अच्छा रहने वाला है । लम्बे समय से रूके हुए काम आज पूरें हो जायेंगे। जो छात्र कम्प्यूटर क्षेत्र से जुड़े हैं ,आज उन्हें ऑनलाईन कुछ अच्छा सिखने को मिलेगा। बेहतर होगा अपनी सफलता की राह में दूसरों को बीच में न आने दें। आज आप सभी तरह की रिस्थितियों से लड़ने के लिये तैयार रहें। आर्थिक मामलों को लेकर किसी व्यक्ति से बहुत रोचक मुलाकात होगी ।

मिथुन – आज आपका दिन सामान्य रहने वाला है । कार्यक्षेत्र में रूका हुआ सभी काम बहुत ही अच्छी तरह और आसानी से पूरा हो जायेगा । घर में बडो से बातचीत करने से सहयोग प्राप्त होगा साथ ही चल रही परेशानियां भी आज खत्म हो जाएंगी। विरोधी पक्ष आज आपके सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो जायेंगे ।

कर्क – आज का दिन बहुत ही बढ़िया रहने वाला है । इस राशि के जो लोग वकील हैं आज उनका सामाज में नाम होगा। आज किसी दोस्त के जरिए आपको धनलाभ हो सकता है। अगर आप परिवार के साथ समय बितायेंगे बच्चे आपसे खुश रहेंगें । ऑफिस के सभी लोग आपके व्यवहार से खुश रहेंगे।

सिंह – आज का दिन शानदार रहने वाला है । परिवारवालों के साथ समय अधिक बीतेगा । आज जैसे-जैसे समय बीतता जायेगा, वैसे ही सभी काम असानी से पूरा हो जायेगा । आज आपकी आर्थिक लाभ की सम्भावना बन रही है। इस राशि के छात्रों के मन में आज कई तरह के विचार आयेंगे, पढ़ाई से मन डिस्ट्रैक्ट हो सकता है ।

कन्या – आज का दिन अनुकूल रहने वाला है। अगर आप कार्यक्षेत्र में प्रमोशन या सम्मान के बहुत नजदीक हैं तो, आज आपको अपनी मेहनत में थोड़ा इजाफा करने की जरुरत है ।आज की गई मेहनत का पूरा फायदा मिलेगा । इस राशि के छात्र आज शांत होकर विचार करें और अपने काम पर कॉन्सन्ट्रेट करें, परिणाम अच्छा मिलेगा ।

तुला – आज का दिन बहुत ही बढ़िया रहने वाला है । आज आपको कोई बड़ी सफलता मिलेगी साथ ही कार्यक्षेत्र में भी आपका प्रदर्शन उम्मीद से अच्छा रहेगा। अगर आप अपने रहन-सहन में बदलाव करने की सोचेंगें जिससें आपको फायदा होगा। इस राशि के जो लोग बेरोजगार उन्हें ऑनलाई पैसे कमाने का मोका मिलेगा।

वृश्चिक – आज का दिन उत्तम रहने वाला है । आज अपने लिए कुछ ख़ास करने के लिए बहुत ही अच्छा दिन है । आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी आज मिल सकती है , जिसे आप बखूबी निभाएंगे । इस राशि के कलाकारों के लिए आज का दिन विशेष रूप से अच्छा है, समाज में आपका नाम होगा, शुरू किये हुए कार्यों को आज ही पूरा कर लेंगें।

धनु – आज का दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपको जिस अवसर की पिछले कई दिनों से तलाश थी वो आज किसी करीबी की मदद से आपको मिल जायेगी । बिजनेस से संबंधित किसी काम में आप अपने पिता की मदद लेंगे । किसी प्रोजेक्ट मे शामिल होने से पहले उससें अच्छी तरह समझ लें । बॉस को आज आपसे काफी उम्मीदें रहेंगी ।

मकर – आज का दिन उत्तम रहने वाला है । आज आप योजना बनाने और उसे लागू करने के मूड में रहेंगे । आज आप नौकरी से जुड़े किसी भी काम में कोई बड़ा फैसला लेना चाहते हैं तो ले लें । समय अनुकूल है,साथ ही किसी कन्फ्यूजन के खत्म होने की भी संभावना बन रही है। थोड़ी-सी कोशिश से आप ऊंचे पद पर पहुंच सकते हैं।

कुंभ – आज का दिन ठीक ठाक रहने वाला है। आज उन परिस्थितियों में पड़ने से बचें जिनमें आप असुविधा महसूस करते हैं। अपनी सोच सकारात्मक बनाए रखें और फिजूल की बातो में ना पड़ें। अगर आप किसी नये काम की शुरुआत कर रहे हैं तो आज पूरा दिन व्यस्त रहने वाले हैं । मानसिक तनाव बढ़ सकता है ।

मीन – आज का दिन मिला-जुला रहने वाला है । आपको मिलने वाले ज्यादातर समाचार फेवर में रहेगा । ऑफिस के सहकर्मी के साथ किसी बात को लेकर बहस हो सकती है। फीजूल की बातों से बचने की कोशिश करें, आवश्वयकता पड़ने पर ही बोलें । आज फोन पर किसी रिश्तेदार से लंबी बात हो सकती है ।

छत्तीसगढ़ प्रदेश शिक्षक फेडरेशन को मिली मान्यता

शिक्षक संवर्ग का हित संवर्धन ही सर्व प्राथमिकता-राजेश चटर्जी

राजनांदगांव (दावा)। छत्तीसगढ़ प्रदेश शिक्षक फेडरेशन के प्रांताध्यक्ष राजेश चटर्जी, प्रांतीय प्रमुख महामंत्री सतीश ब्यौहरे, जिला संरक्षक मुकुल साव, जिला अध्यक्ष पी.आर. झाड़े, पी.एल. साहू, जितेंद्र बघेल, बृजभान सिन्हा, वीरेंद्र रंगारी, शीरीष पांडे हेमंत पांडे, पुष्पेंद्र साहू, उत्तम डड़सेना, द्रोण साहू, नीलू झाड़े, सीमा तरार, रमेश साहू, संजीव मिश्रा, संगीता ब्यौहरे, अभिषिक्ता फंदियाल, स्वाति वर्मा, सुधांशु सिंह, सोहन निषाद, अब्दुल कलीम खान, सी.एल.चंद्रवंशी, राजेंद्र देवांगन, सी.आर.वर्मा हीरालाल गजभिए एवं अनिल साहू ने जानकारी दिया है कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के प्रशासकीय स्वीकृति से छत्तीसगढ़ प्रदेश शिक्षक फेडरेशन को मान्यता का आदेश सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया है। गौरतलब है कि अविभाजित मध्यप्रदेश में 1982 से संगठन के पदाधिकारियों का बोलबाला रहा है। वर्ष 2013 में छत्तीसगढ़ फर्म्स एवं संस्थाएं से नवीन पंजीयन के बाद से स्कूल/ट्राइबल शिक्षा विभाग एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के शिक्षक संवर्गों के अधिकार का आवाज बुलंद करते रहा है। राज्य शासन के नियम अनुसार प्रतिवर्ष सदस्यों की जानकारी छत्तीसगढ़ सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के धारा-27 में पदाधिकारियों की प्रमाणित सूची तथा ऑडिट रिपोर्ट की जानकारी धारा-28 प्रस्तुत किया है। छत्तीसगढ़ शासन ने वर्ष 2019 एवं 2022 को मान्यता दिया था।

उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य के 33 जिलों में संगठन का प्रभाव है। शिक्षक संवर्ग के मुद्दों के जानकार एवं समाधान करने वाले अनुभवी पदाधिकारियों का प्रबंधन है। संगठन के सुझाव अनुसार पाटन(दुर्ग) अधिवेशन में 50 प्रतिशत सीधी भर्ती एवं 50 प्रतिशत पदोन्नति के नियम को संशोधित कर वर्ष 2008 (अराजपत्रित सेवा) तथा 2009(राजपत्रित सेवा) में 100 प्रतिशत पदोन्नति का भर्ती पदोन्नति नियम स्कूल शिक्षा विभाग ने बनाया था। जिसके कारण वर्षों से एक ही पद पर कार्यरत शिक्षक रातोंरात पदोन्नत हुए थे। तत्समय शिक्षा सचिव नंद कुमार अधिवेशन के मुख्य अतिथि थे। ट्राइबल विभाग एवं स्कूल शिक्षा विभाग के शिक्षक/कर्मचारियों का परस्पर हस्तांतरण/संविलियन का आदेश 9/2/2010 को संगठन के सुझाव अनुसार जारी शिक्षक/कर्मचारी हित में जारी हुआ था। एक विभाग एक भर्ती नियम का अवधारणा संगठन ने सुझाया था। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा द्वारा भर्ती पदोन्नति नियम 2019 बनाया गया था। तत्समय शिक्षा प्रमुख सचिव गौरव द्विवेदी थे। इसके अलावा राज्य शासन ने शिक्षक संवर्ग हित के मुद्दों पर अनेक निर्णय संगठन के सुझाव पर लिया है। छत्तीसगढ़ प्रदेश शिक्षक फेडरेशन जिला राजनांदगांव के सक्रिय पदाधिकारी/सदस्यों ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को धन्यवाद ज्ञापित किया है।

प्रशांत वर्मा तहसीलदार हेतु चयनित : दी बधाई

डोंगरगढ़ (दावा)। ग्राम गातापारकला (सिरसाही) के लोधी समाज को गौरवान्वित करने वाले प्रशांत वर्मा पिता रमेश कुमार वर्मा के सफलतापूर्वक तहसीलदार के पद पर चयन होने पर सामाजिक गणों ने बधाई शुभकामनाएं दी है। बधाई देने वालों में राष्ट्रीय लोधी महासभा नई दिल्ली के राष्ट्रीय सचिव मूलचंद लोधी, जिला लोधी समाज पूर्व अध्यक्ष रजभान लोधी डोंगरगढ़ सर्किल अध्यक्ष ओमकार लिल्हारे, पुष्पा वर्मा, नीरज चंदेल, ईश्वर वर्मा, बाबूलाल वर्मा, गुरुजी पूरनलाल वर्मा, ईश्वरी वर्मा, तेजलाल वर्मा, दिनेश वर्मा, डॉ ओमदत्त वर्मा, मोती वर्मा, जितेंद्र वर्मा, शिव वर्मा, लोकेश वर्मा, चेतन दास वर्मा, रामकुमार वर्मा, रघुनंदन वर्मा, भूषण वर्मा, विजय वर्मा, डॉ. श्याम लाल वर्मा, निलेश वर्मा आदि बड़ी संख्या में सामाजिक जन उपस्थित रहे।

भोलापुर में सामुदायिक भवन निर्माण के लिए 20 लाख की स्वीकृति

ग्रामीणों ने उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा को धन्यवाद ज्ञापित किया

छुरिया (दावा)। ग्राम पंचायत भोलापुर विकासखण्ड छुरिया जिला राजनांदगांव के ग्रामीणों की मांग पर उपमुख्यमंत्री व जिले के प्रभारी मंत्री विजय शर्मा ने सामुदायिक भवन निर्माण के लिए 20 लाख की स्वीकृति प्रदान की है। जिसके लिए भोलापुर के ग्रामीणों ने दिनांक 10 दिसम्बर दिन मंगलवार को एक दिवसीय राजनांदगांव प्रवास पर आये उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा का राजनांदगांव के रेस्टहाऊस मे जिला भाजपा महामंत्री रविंद्र वैष्णव के सौजन्य से गुलदस्ता भेट कर धन्यवाद ज्ञापित किया। साथ ही ग्राम भोलापुर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं मानव संसाधन (पद सेटअप) की स्वीकृति दिलाने आवेदन सौपा। ग्रामीणों की मांग को गंभीरता पूर्वक सुनने के बाद बजट में शामिल कर स्वीकृति दिलाने की बात कही। इस अवसर पर रुखम प्रसाद पाण्डेय सरपंच भोलापुर, मोहित सिन्हा ग्राम पटेल भोलापुर, हेमलाल साहू अध्यक्ष ग्राम विकास समिति भोलापुर, शीशुपाल साहू अध्यक्ष शाला विकास प्रबंधन समिति भोलापुर, भोजेश चतुर्वेदी सचिव ग्राम विकास समिति भोलापुर, दुकालूराम साहू कोषाध्यक्ष ग्राम विकास समिति भोलापुर, पंचराम साहू, लखन लाल साहू उपस्थित थे।

पहला कॉलम...

हल्दी के माईनर नहर निर्माण हेतु 21 लाख रुपये स्वीकृत

राजनांदगांव (दावा)। शिवनाथ वार्ड नं 51 हल्दी के माईनर नहर में रोड निर्माण हेतु किसानों द्वारा काफी लम्बे समय से मांग कर रहे थे जिसे भाजपा कार्यकर्ता ने किसानों की समस्याओं को देखते हुए विधायक, पूर्व मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह को किसानों की समस्याओं से अवगत कराया गया और विधायक डॉ. रमन सिंह ने हरदी के माईनर नहर निर्माण हेतु 21 लाख रुपए स्वीकृति प्रदान किया गया। हरदी वार्ड नं 51 के सभी किसानों ने विधायक डॉ. रमन सिंह को बहुत-बहुत धन्यवाद एवं आभार व्यक्त किया।

शा. नवीन महाविद्यालय चिल्हाटी में महिला प्रकोष्ठ के द्वारा छात्राओं के लिए स्वास्थ्य जागरुकता कार्यक्रम

अंबागढ़ चौकी (दावा)। शासकीय नवीन महाविद्यालय चिल्हाटी में महिला प्रकोष्ठ सदस्य द्वारा छात्राओं के स्वास्थ्य जागरुकता से संबंधित कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि अल्फा बेथ फिल्कश ए.एन.एम. उपस्वास्थ्य केन्द्र चिल्हाटी की उपस्थिति में छात्राओं को स्वास्थ्य से संबंधित व्यक्तिगत स्वच्छता और बीमारियों से कैसे अपने आप को बचाया जा सकता है साथ ही महिलाओं से संबंधित माहवारी में होने वाली समस्याओं का समाधान बताया गया। यह कार्यक्रम महाविद्यालय के प्रभारी प्राचार्य डॉ. के आर रावटे के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ, कार्यक्रम में महिला प्रकोष्ठ के संयोजक सुश्री चम्पा गावरे, सहसंयोजक सुश्री कुशाली गेडाम, महिला सदस्य श्रीमती रेणुका मंडावी, श्रीमती कविता पटेल, सुश्री पूजा साहू, सुश्री निशा अंबादे और सुश्री रामेश्वरी माहला उपस्थित रहें।

कलेक्टर के आश्वासन के बाद कांग्रेस का धरना प्रदर्शन रद्द

खैरागढ़ (दावा)। बीते 3 दिसंबर को कांग्रेस पार्टी द्वारा प्रेस वार्ता लेकर नगर पालिका में हो रहे भ्रष्टाचार को उजागर किया गया था और खैरागढ़ कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर भ्रष्टाचार की जांच व कार्यवाही के लिये 7 दिनों का अल्टीमेटम दिया था। ज्ञापन में 7 दिनों के भीतर भी कोई कार्यवाही न होने पर विशाल धरना प्रदर्शन व सीएमओ का पुतला दहन करने की चेतावनी दी गई थी। इसी के तहत 13 दिसंबर को अब तक सीएमओ के खिलाफ कोई कार्यवाही न होने से नाराज विधायक सहित कांग्रेस कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन व पुतला दहन करने वाले थे। लेकिन आनन-फानन में कलेक्टर ने विधायक यशोदा वर्मा व कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बुलाकर आश्वासन दिया है, कि जांच कमेटी गठित कर दी गई है। जांच पूरी होने के बाद मामले में निश्चित ही दोषियों पर कार्यवाही की जाएगी। कलेक्टर के आश्वासन बाद विधायक यशोदा वर्मा ने कहा कि 7 दिनों के भीतर कार्यवाही नहीं हुई, तो नगर पालिका के साथ-साथ कलेक्ट्रेट का भी घेराव करेंगे।

युगांतर के बच्चे राष्ट्रीय कला उत्सव के लिए चयनित

राजनांदगाँव (दावा)। भारत में शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी संस्था युगांतर पब्लिक स्कूल के बच्चों ने राज्य स्तरीय कला उत्सव पर अपनी वादन-प्रतिभा का लोहा मनवाते हुए राष्ट्रीय कला उत्सव के लिए क्वालीफाई किया है। पहले ये विद्यार्थी जिला स्तर में शानदार प्रदर्शन के बल पर राज्य स्तर पर पहुँचे। वहाँ भी अपनी वादनकला का श्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रीय कला उत्सव के लिए चयनित हुए हैं। एकल तबला वादन में प्रत्युष गेडाम, फॉक आर्केस्ट्रा में केशव तेंदुलकर, नंदकुमार नेताम, समीर किंडो, शुभांशु कश्यप, युवराज मालिया ने शानदार वादन कला को प्रस्तुत कर विद्यालय को गौरवान्वित किया है। इन विद्यार्थियों को मार्गदर्शित करने में वरिष्ठ रिदम शिक्षक गोपी प्रसाद पटेल, अक्षय केहरी, संगीत शिक्षक टी विशाल, आकांक्षा चतुर्वेदी, लवली पाल ने महत्वपूर्ण योगदान दिया।



जिपं. उपाध्यक्ष विक्रांत सिंह की मौजूदगी में हुआ सोसायटी का पदभार ग्रहण

0 सोसायटी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले किसान हुए शामिल

गंडई (दावा)। वृहत्ताकार सेवा सहकारी समिति मर्यादित गंडई, हनईबन में राज्य सरकार द्वारा नवनियुक्त सोसायटी अध्यक्ष का पदभार ग्रहण कार्यक्रम मंगलवार 10 दिसंबर को आयोजित हुआ, जिसमें गंडई सोसायटी में धरमू पटेल, हनईबन सोसायटी में लीकेश साहू ने विधिवत पदभार ग्रहण किया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजनांदगांव जिला पंचायत उपाध्यक्ष विक्रांत सिंह की उपस्थिति में पदभार ग्रहण कार्यक्रम सम्पन्न हुआ। उक्त अवसर पर जिपं. उपाध्यक्ष विक्रांत सिंह ने कहा कि किसानों एवं शासन को जोड़ने की कड़ी के रूप में सेवा प्रदान करने राज्य सरकार ने सोसायटी में प्राधिकृत अधिकारी के रूप में अध्यक्ष मनोनीत किया है, पार्टी के सक्रिय एवं निष्ठावान कार्यकर्ता को यह जिम्मेदारी पार्टी ने सौपी है। केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार एवं राज्य में विष्णुदेव साय की सुशासन की डबल इंजन की सरकार आप समस्त किसानों के आशीर्वाद से निरंतर कार्य कर रही है। घोषणा पत्र के अनुसार भाजपा ने जो कहा वह हमारी सरकार ने पूरा किया है। सरकार बनते ही किसानों के धान को प्रति एकड़ 21 क्विंटल एवं एकत्तीस सौ रुपये में खरीदने का वादा को पूरा किया। आज किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य सीधे उनके खाते में राशि प्रदान किया जा रहा है।

किसानों को धान बेचने में किसी प्रकार की परेशानी न हो इसके लिए प्राधिकृत अधिकारी (अध्यक्ष) की नियुक्ति कर किसानों के विषय को हल करने आप किसानों के बीच से नियुक्ति किया गया है। हमने बनाया है हम ही सवारेंगे के मूलमंत्र को हमारी सरकार साकार कर रही है, सभी वर्गों एवं सभी क्षेत्रों में विकास का कार्य कर रही है। कांग्रेस के कार्यकाल में पी एस सी घोटाला हुआ है, जिनके चेयरमैन का पूरा परिवार सरकारी नौकरी में काबिज है। पढ़े लिखे नवजवानों को नौकरी के लिए भटकना पढ़ रहा था, आज भाजपा के सरकार में उन सभी को न्याय मिला है। बिना पैसा दिए काबिलियत पर नौकरी कर रहा है। किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत भाजपा पार्टी ने ही शुरू किया था, कार्यक्रम में भाजपा नेता खम्हन ताम्रकार ने कहा कि किसानों के एक एक दाना को खरीदने का कार्य सोसाइटी के माध्यम से डॉ रमन सिंह की सरकार ने प्रारम्भ किया था, एक-एक पार्टी के कार्यकर्ता किसानों के सहयोग के साथ है। विष्णु देव साय सरकार संगठन की निष्ठावान कार्यकर्ता धरमू पटेल को गंडई समिति का दायित्व सौपा है, यहां 13 गांव के 2631 किसान पंजीकृत है, जो अपनी धान आसानी से समिति में बेच सकता है। बीच में पांच वर्ष कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी जिनके कार्यकाल में किसानों को धान बेचने हेतु रातभर टोकन के लिए जागना पड़ता था, लेकिन अब ऑनलाइन व ऑफलाइन के माध्यम से किसानों को टोकन प्रदान किया जा रहा है। विक्रांत सिंह को रेड क्रास सोसायटी के जिलाध्यक्ष बनाए जाने पर खमहन ताम्रकार ने कार्यक्रम में बधाई दी है।

कार्यक्रम का सफल संचालन जिला कार्यसमिति सदस्य राकेश ठाकुर ने किया। कार्यक्रम को जीवन दास रात्रे, अनिल अग्रवाल ने भी संबोधित किया। नवनियुक्त सोसायटी अध्यक्ष धरमू पटेल ने अपने संबोधन में कहा कि क्षेत्र के किसानों को धान विक्रय, ऋण संबंधी एवं खाद्य बीज के लिए किसी को परेशानी न हो इसका पूरा ख्याल रखा जाएगा और इस नये दायित्व के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, जिला पंचायत उपाध्यक्ष विक्रांत सिंह सहित जिले के सभी वरिष्ठों पदाधिकारियों का आभार प्रकट किया, और कार्यक्रम का आभार व्यक्त किया।

इस शपथ ग्रहण कार्यक्रम में सांसद प्रतिनिधि राकेश ताम्रकार, मंडल अध्यक्ष राजेश मेहता, भाजपा जिला उपाध्यक्ष अनिल अग्रवाल, भाजपा नेता खम्हन ताम्रकार, राकेश जायसवाल, राकेश ठाकुर, विक्की अग्रवाल, टूम्मन साहू, पुष्पेंद्र देवांगन, जीवनदास रात्रे, टेकन देवांगन, जगेशर देवांगन, रवि भावनानी, उमा चौबे, अंजली देवांगन, आशा कुर्रे, सोसायटी अध्यक्ष सुखदेव पटेल, अमित शर्मा, लीकेश साहू, दुजेराम वर्मा, दिनेश भट्ट, छत्रपाल सिंह खुसरो, रामकुमार साहू, यतीश कुंजाम, मुकेश धनकर, धर्मेंद्र पटेल, विक्की कुर्रे, बबलू श्रीवास, अशोक देवांगन, लऊ दास भारती, भूपेंद्र पटेल, टीकम वैष्णव, योगेश साहू, योगेंद्र कौशिक, समिति प्रबंधक जगदीश जंघेल, रूप नारायण हिरवानी सहित क्षेत्र के सैकड़ों किसान एवं पार्टी के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। जिला पंचायत निधि से स्वीकृत कार्यों का किया भूमिपूजन-सेवा सहकारी समिति गंडई और हनईबन के मनोनित अध्यक्ष के शपथ ग्रहण समारोह कार्यक्रम संपन्न होने के बाद विक्रांत सिंह अपनी पूरी टीम के साथ ग्राम बरबसपुर एवं चिलगुड़ा पहुंचे, जहां जिला पंचायत उपाध्यक्ष निधि से स्वीकृत सीसी रोड एवं मंच का भूमिपूजन कार्य संपन्न किया गया। ग्राम बरबसपुर में 2 लाख की लागत से बनने वाले मंच निर्माण का भूमिपूजन एवं ग्राम चिलगुड़ा में 2 लाख की लागत से बनने वाले सीसी रोड का भूमिपूजन कार्य संपन्न किया गया।

छुरिया मंडल अध्यक्ष पद हेतु चुनाव संपन्न, 8 लोगों ने की दावेदारी

छुरिया (दावा)। भाजपा मंडल छुरिया मे जिला भाजपा के निर्देशन पर मंडल अध्यक्ष पद हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए थे, जिसमे आठ दावेदारों ने अपना दावेदारी प्रस्तुत किए, राष्ट्रीय संगठन द्वारा मंडल अध्यक्ष पद हेतु 35 वर्ष से अधिक व 45 वर्ष से कम आयु वर्ग के पदाधिकारियों जो सक्रिय सदस्य हो उन्हें इस पद के लिए योग्यता तय किया गया था।

सुचारू रूप से चुनाव संपन्न कराने के लिए जिला भाजपा संगठन द्वारा मूलचंद लोधी को चुनाव प्रभारी व संजय कुमार सिन्हा को चुनाव सहप्रभारी नियुक्त किया गया था। इस चुनाव में मुख्य रूप रविंद्र वैष्णव महामंत्री जिला भाजपा, चंद्रिका प्रसाद डडसेना उपाध्यक्ष, सुरेंदर सिंह भाटिया, श्रीमती किरण वैष्णव अध्यक्ष जनपद पंचायत छुरिया, सीमा सिन्हा अध्यक्ष नगर पंचायत छुरिया, अजय पटेल अध्यक्ष मंडल भाजपा, राधेश्याम शर्मा, जगजीत सिंह भाटिया, राजेश्वर ध्रुवे, शेखर भरतद्वाज सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। चुनाव प्रभारी श्री लोधी ने बूथ अध्यक्षों व कार्यकर्ताओं से एक-एक कर कार्यकर्ताओं से चर्चा किए, इस चुनाव में आठ दावेदारों ने अपनी दावेदारी प्रस्तुत किए थे जिसमें कांता प्रसाद साहू, कुंदन बडोले, हितेश गुप्ता, खिलेंद्र साहू, मनोज साहू, श्यामसुंदर साहू, धनेश्वर कोर्राम, टीकम साहू ये प्रमुख दावेदार रहे। इसके उपरांत जिला भाजपा से तय कोर कमेटी के सदस्यों ने आपसी रायशुमारी कर प्रस्ताव पारित किया गया। प्रस्ताव की कापी को चुनाव प्रभारी ने बंद लिफाफे में जिला भाजपा को प्रेषित किया गया। यह जानकारी मंडल महामंत्री संजय कुमार सिन्हा ने दी।

रानी मंदिर में अंतिम अगहन बृहस्पति पूजा प्रसाद वितरण संपन्न

छुईखदान (दावा)। छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय त्योहारों में अंतिम अगहन बृहस्पति पूजा 12 दिसम्बर गुरुवार को रानी मंदिर छुईखदान में महिलाओं द्वारा सामूहिक पूजा अर्चना किया गया। मंदिर समिति के संरक्षक लतारानी लाल जे.के.वैष्णव ने जानकारी दी कि महिलाएं घर में पूजा कर रानी मंदिर में प्रतिष्ठित मां लक्ष्मी जी कलश, धान की बाली, रखिया कांदा, की सामूहिक पूजा कर कथा वाचन हुंकारु अनिवार्य रूप से देकर भोग लगाती हैं। पूजा से पहले बुधवार की शाम से ही घर की साफ-सफाई, मंदिर परिसर की साफ-सफाई गोबर से लीपकर चौक रंगोली मुख्य द्वार से पूजा स्थल तक चूना छुही से चौक बनाकर विशेष रूप से मां लक्ष्मी जी के पद चिन्ह को चावल के आटे के घोल से बनाकर हल्दी चावल पुष्प फूल चढ़ाकर दीपक जलाते हैं। गुरुवार के दिन सुबह दोपहर शाम तीन समय पूजा होती है जिसमें कथा श्याम बाला, जगन्नाथ बलभद्र, नल दमयंती, सीरिया पीरिया ब्राम्हण कन्या की कथा, सहस्त्र कमल दल चौंक पर होता है।

भोग में मीठा चीला, बोबरा, मालपुआ, हल्वा, खीर, तिलगुजिया, पूरनपूडी का भोग लगाकर मां लक्ष्मी जी का सामूहिक भजन कीर्तन करते हैं। लाल जे.के.वैष्णव छोटे राजा परिवार द्वारा अंतिम अगहन वृहस्पति पूजा पश्चात 12 दिसम्बर को प्रसाद वितरण किया गया। इस अवसर पर रोहिणी शर्मा, रंजना गजेन्द्र सोनी, प्रमिला जंघेल, संगीता संजय वैष्णव, कुमारी श्रीवास, काजल तम्बोली, सीमा अनिल राजपूत पुजारी, मिथिला ठाकुर, पार्वती यादव, लतारानी वैष्णव, जमुना यादव, सुप्रिया सचिन महोबिया, राखी, पूजा, रेणू, रानू, रीनू महोबिया, ललिता यादव, दिव्या प्रधान, आकांक्षा उपाध्याय, चन्द्रकला अशोक नामदेव, रोहिणी शर्मा, मधु राजपूत, ममता महोबिया, गुड्डी महोबिया, रानू महोबिया, निशा नामदेव, दामिनी, आरती भुनेश्वरी, वीणा, नंदनी, रजमत सहित बड़ी संख्या में भक्त महिलाएं उपस्थित रही।

खाद्य विभाग की लापरवाही से देवकट्टा के ग्रामीणों को राशन नहीं हो रहा नसीब

राजनांदगांव (दावा)। डोंगरगढ़ विकासखंड के ग्राम देवकट्टा में ग्रामीणों को ठीक तरह से खाद्यान्न उपलब्ध नहीं होने से यहां के राशन दुकान में आबंटन बढ़ाए जाने की मांग की गई है। इसके लिए ग्राम देवकट्टा के महिला समूह की महिलाओं ने जिला मुख्यालय आकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपे है।

बताया जाता है कि ग्राम में संचालित प्रशासकीय उचित मूल्य दुकान महिला समूह के माध्यम से संचालित किया जा रहा है। पूर्व में गांव मोंगिया समूह के द्वारा 30 जुलाई एवं 20 सितंबर को दुकान आबंटन हेतु एसडीएम डोंगरगढ़ व खाद्य अधिकारी के समक्ष आवेदन किया था जिस पर खाद अधिकारी द्वारा तात्कालिक व्यवस्था हेतु समिति के कार्यक्षेत्र से बाहर के समूह को आबंटित किए जाने की बात कही गई थी। 20 दिवस की कार्यावधि पूर्ण होने पर दुकान आवंटन हेतु विज्ञापन/इस्तहार प्रकाशित किया जावेगा। गांव के समूह द्वारा खाद्य अधिकारी से पूछे जाने पर अभी मैं कार्यालय में नहीं हूँ मुझे और भी बहुत सार काम है। फ्री रहुंगा तब निकालुंगा कहकर घुमाया जा रहा है और आज दिनांक बाद भी उक्त दुकान के आबटन हेतु विज्ञापन/ईश्तहार प्रकाशन कर आवेदन नहीं मनाया गया है। साथ ही कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी डोंगरगढ़ से भी किसी भी प्रकार के संतोषजनक जवाब नहीं मिल है। जिससे की हमारे गांव के बिहान महिला स्व-सहायता समूह बेरोजगार है। ग्रामवासियों ने इस संबंध में कलेक्टर से हस्तक्षेप करते हुए दोषियों पर तुरंत कार्रवाई की अपेक्षा की है।

आज भूमि स्वामी पट्टे की मांग को लेकर विधायक श्रीमती बघेल के नेतृत्व में होगा धरना प्रदर्शन

वंचित हितग्राहियों के साथ प्रशासन को सौंपा जाएगा ज्ञापन - अध्यक्ष शहर कांग्रेस

डोंगरगढ़(दावा)। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष विजय राज ने कहा है कि, भाजपा शासन द्वारा प्रदेश के समस्त शहरों में सर्वे कर पट्टा वितरण का आदेश दिया है, जिसे अधिकारी सिर्फ कागज तक ही सीमित रखे हैं, जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं किया जा रहा है, डोंगरगढ़ के किसी भी वार्ड का सर्वे शुरू नहीं किया गया है।

अतः आज 13 दिसंबर को दोपहर 12 बजे विधायक श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल के शासकीय निवास तहसील कार्यालय के सामने सभी हितग्राहियों के साथ विधायक श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल एवं नवाज़ भाई की उपस्थिति में धरना प्रदर्शन कर रैली निकालकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा जायेगा।

दुष्कर्म के फरार आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल

घटना कारित कर फरार था आरोपी, शादी का प्रलोभन देकर बनाया था पीड़िता के साथ शारीरिक संबंध

डोंगरगढ़(दावा)। पीड़िता ने थाना पलारी जिला बलौदा बाजार में दिनांक 15 अक्टूबर को लिखित आवेदन पेश कर रिपोर्ट दर्ज कराया था कि अपने घर वालों के साथ ग्राम समोंदा पुन्नी मेला देखने गई थी। जहां पर नरेन्द्र कुमार साहू मुलाकात हुई, जो मोबाईल नबंर लेकर इससे बातचीत करता था एवं तुमसे प्यार करता हूँ, बोलकर डोंगरगढ़ ले जाकर शादी का प्रलोभन देकर शारीरिक संबंध बनाया है। प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना पलारी जिला बलौदाबाजार में अप.क्र.- 0/2024 धारा-64(2)(ड) बीएनएस कायम कर प्राथमिक कार्यवाही कर असल मूल घटना थाना डोंगरगढ़ क्षेत्र होने से प्रकरण की डायरी थाना डोंगरगढ़ को अग्रिम विवेचना कार्यवाही हेतु प्राप्त होने पर थाना डोंगरगढ़ में अपराध क्र.- 555/2024 धारा-64(2)(ड) बीएनएस का असल अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया।

थाना प्रभारी जितेन्द्र वर्मा के मार्गदर्शन में विवेचना दौरान आरोपी जो घटना कारित कर फरार हो गया था। जो लगातार अपना स्थान बदल-बदल कर रह रहा था। जिसे पता तलाश कर आरोपी को हिरासत में लेकर कथन लिया गया। जो प्रार्थिया के बताये अनुसार घटना दिनांक समय को जुर्म करना स्वीकार किये जो प्रकरण में आरोपी नरेन्द्र साहू पिता अशोक साहू उम्र 21 साल निवासी समोंदा थाना आरंग के विरूद्ध धारा सदर का पर्याप्त साक्ष्य सबुत पाये जाने से आज 12 दिसंबर को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया। न्यायालय द्वारा आरोपी को ज्युडिशियल रिमाण्ड पर जेल निरूद्ध किया गया है।

विष्णु के सुशासन से सँवर रहा छत्तीसगढ़
सुशासन और विश्वास के
जनादेश के
1 वर्ष
भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री
श्री जेपी नड्डा जी
का छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर
हार्दिक अभिनंदन...
जनादेश
परब
विशाल जनसभा
दोपहर 02:00 बजे
साइंस कॉलेज मैदान, रायपुर
श्री जेपी नड्डा जी
के करकमलों द्वारा
स्मृति मंदिर
का
लोकार्पण
सायं 04:30 बजे
भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय
कुशाभाऊ ठाकरे परिसर, रायपुर, छत्तीसगढ़
स्मृति मंदिर
भारतीय जनता पार्टी, छत्तीसगढ़

भाजपा नेताओं के संरक्षण से अधिकारी बेखौफ होकर कर रहे भ्रष्टाचार- मनराखन देवांगन

खैरागढ़ (दावा)। विधायक प्रतिनिधि मनराखन देवांगन ने मुख्य नगर पालिका अधिकारी प्रमोद शुक्ला का छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा निलंबित करने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस कार्यवाही से भाजपा सरकार मे अधिकारियों का भ्रष्टाचार उजागर हुआ है कि भाजपा नेताओं के श्रेय से लाखों रुपया भ्रष्टाचार कैसे अधिकारी बेखौफ होकर कर रहे हैं।

भ्रष्टाचार के खिलाफ सड़क से सदन तक लड़ाई जारी रहेगा-मनराखन देवांगन

डोंगरगढ़ में भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारी खैरागढ़ में 43 स्थापना 2023 से लगातार शासन की विभिन्न योजनाओं का फर्जी तरीके से खर्च किया, चेक काट कर आहरण करते रहा जिसके जांच अभी लंबित है।। खैरागढ़ के भ्रष्टाचार को लेकर विधायक यशोदा वर्मा ने धरातल में उतरकर शहर में कांग्रेस पार्षदों के साथ भ्रमण कर अधिकारियों को उसके सामने सच्चाई दिखाया था तथा अनेक दस्तावेजों से प्रमाण पेश किया था। विधायक यशोदा नीलांबर वर्मा ने लगातार सीएमओ के भ्रष्टाचार को लेकर आवाज बुलंद करते हुए नगरी प्रशासन सचिव जिलाधीश को ज्ञापन सौंप कर तथा स्वच्छता श्रृंगार सहित अन्य भ्रष्टाचार के विषय को विधायक ने विधानसभा में प्रश्न लगाकर सरकार से जवाब पूछा है। कार्यवाही की मांग की गई थी, लेकिन प्रशासन द्वारा सीएमओ के खिलाफ कार्यवाही नहीं होने पर 7 दोनों का अल्टीमेटम भी दिया था जिसके बाद 13 दिसंबर को विधायक व संगठन के नेतृत्व में विशाल धरना प्रदर्शन पुतला दहन का कार्यक्रम रखा गया. जिससे घबराकर भाजपा सरकार को आनंद-फानन में डोंगरगढ़ के भ्रष्टाचार के मामले में निलंबित करना पड़ा विधायक प्रतिनिधि श्री देवांगन ने आगे कहा कि खैरागढ़ में विधायक व कांग्रेस के दबाव में सीएमओ को सरकार को निलंबित करना पड़ा है। परंतु खैरागढ़ नगर पालिका में डोंगरगढ़ पालिका से कहीं बड़ी भ्रष्टाचार का सीएमओ द्वारा किया गया है परंतु सरकार उसे कार्यवाही करने से हाथ खींच रही है खैरागढ़ में पालिका के भ्रष्टाचार में कार्यवाही नहीं होते तक सड़क से सदन तक लड़ाई जारी रहेगा।

डुमरडीहकला में श्रीमद् देवी भागवत कथा का हुआ समापन

राजनांदगांव (दावा)। डुमरडीहकला में कथा के आखरी दिन हजारों की संख्या में भक्तों ने आचार्य पं. युवराज पाण्डेय के श्रीमुख से कथा का श्रवण किया गया जगन्नाथ आरती और देवी जसगीत के साथ किया गया।

आचार्य पं. युवराज पाण्डेय ने अपने आखरी दिन की कथा में भगवत गीता का उपदेश देते हुए बताया कि जिस समय कुरूक्षेत्र के मैदान पर कौरवो और पांडवों का युद्ध होने वाला था, इस समय शंखनाद होने के बाद अर्जुन अपने गाडी व धनुष के साथ ही व्याकुल हो उठते हैं, तब जाकर भगवान श्री कृष्णा कुरूक्षेत्र के बीच मैदान में अर्जुन को गीता का ज्ञान देते हुए ज्ञान योग-कर्म योग और भक्ति योग का उपदेश देते हुए कहा कि कर्मयोग कर्म के माध्यम से आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने का एक तरीका है।

इसमें व्यक्ति अपने कर्मो को बिना किसी अपेक्षा के करता है और फल की चिंता नहीं करता। भक्तियोग भक्ति के माध्यम से आत्म-साक्षात्कार प्राप्त करने का एक तरीका है, इसमें व्यक्ति भगवान के प्रति प्रेम और भक्ति का अभ्यास करता है।

गीता पाठ के बाद महाप्रसादी भंडारा कराया गया, जहां दूर-दूर से पहुंचे श्रद्धालुओं ने प्रसाद लिये व प्रसाद वितरण में सहयोग प्रदान किये। दूसरे दिन माता का विसर्जन गाजे-बाजे के साथ छत्तीसगढ़ी जस गायिका ममता देशमुख एवं साथियों द्वारा किया गया, जहां डुमरडीहकला सहित आसपास के श्रद्धालुगणों ने पूरे भक्ति के साथ शोभायात्रा निकाली। बाइक रैली से लेकर श्रीमद् देवी भागवत विशाल चंडी यज्ञ में क्षेत्रीय जनपद सदस्य सभापति ओमप्रकाश साहू, आयोजन सरपंच दिनेश सिंह ठाकुर, ध्यानचंद बाफना, पवन वाधवा, सुरेंद्र सिंह, मुरली सिंह ठाकुर, डॉ. हरिशंकर जंघेल, हरिशंकर पाल, सौरभ वैष्णव, मोहन साहू, राकेश साहू, परदेशी साहू, नोमेश वर्मा, रितेश सिन्हा, पवन महोबिया, दीनू साहू, राकेश खरे, चंद्रशेखर साहू, प्रीतम साहू, टीकम सिन्हा, हुकुम सिंह सहित समस्त क्षेत्रवासियों व ग्रामवासियों श्रीराम मंदिर ट्रस्ट समिति का विशेष सहयोग रहा।

प्लेसमेंट कर्मचारी अपने कार्य में उपस्थित रहे -आयुक्त

राजनांदगांव (दावा)। नगरीय निकाय के कर्मचारियों द्वारा अपने मांगो के संबंध में अनिश्चितकालीन हड़ताल किया जा रहा है। नगर निगम के कर्मचारियों के हड़ताल में जाने से नगर निगम की मूलभूत अतिआवश्यक सेवा बिजली, पानी सफाई प्रभावित हो रही है। जिसके लिये आयुक्त अतुल विश्वकर्मा ने निगम के अति आवश्यक सेवा में कार्यरत कर्मचारियों से अपने कार्य में लौटने की अपील की।

आयुक्त श्री विश्वकर्मा ने कहा कि नगर निगम का मूल कार्य नागरिकों को बिजली पानी सफाई जैसे अति आवश्यक सेवा उपलब्ध कराना है। कर्मचारियों के अनिश्चितकालीन हड़ताल से निगम सीमाक्षेत्र में नागरिकों को दी जाने वाली सुविधा बिजली, पानी सफाई प्रभावित हो रही है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को अपने हक के लिये मांग करने का पूरा अधिकार है और कर्मचारियों की मांगों पर शासन को विचार करना है। लेकिन अधिकार के साथ-साथ निकाय के मूल कार्य बिजली पानी सफाई नागरिकों को उपलब्ध कराना मूल कर्तव्य है, जिसे ध्यान में रखकर अति आवश्यक सेवा में कार्यरत कर्मचारी अपने कर्तव्यों का निर्वाहन करे। उन्होंने इस संबंध में कर्मचारियों से अपील की है कि उक्त सेवा में लगे कर्मचारी अपने कार्य में लौट कर अपने कर्तव्यों का निर्वाहन करे, जिससे मूलभूत सुविधा बाधित न हो।

आयुक्त श्री विश्वकर्मा ने प्लेसमेंट एजेन्सी के ठेकेदारों से भी कहा है कि आपके अधीनस्थ कर्मचारी अपने कार्य में उपस्थित रहे। अनुपस्थित कर्मचारियों के एवज में नियम शर्तों के तहत कर्मचारी उपलब्ध करावे, जिससे अनिवार्य सेवा प्रभावित न हो।

फुटबॉल प्रतियोगिता में दुर्ग की टीम विजयी, मेजबान बना उपविजेता

डोंगरगढ़(दावा)। राज्य स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता का समापन 8 दिसंबर को हुआ। एक दिसंबर को प्रारंभ हुई फुटबॉल में कुल 16 टीमों ने भाग लिया। इस प्रतियोगिता में फाइनल मुकाबला दुर्ग और डोंगरगढ़ की टीम के मध्य हुआ। मैच में पहले डोंगरगढ़ के शिवेंद्र यादव ने 30वें मिनट में गोल कर डोंगरगढ़ की टीम को 1-0 की बढ़त दिलाई। प्रतियोगिता में सबसे ज्यादा गोल करने वाले डोंगरगढ़ के खिलाड़ी शिवेंद्र यादव रहे।

मैच के अंतिम क्षण में दुर्ग के खिलाड़ी ने गोल कर दिया। दोनों टीम बराबरी पर आ गई। दुर्ग की टीम ने पेनाल्टी शूट आउट में विजय हासिल कर ली।प्रतियोगिता के फाइनल मैच में मुख्य अथिति डोंगरगढ़ विधायक हर्षिता स्वामी बघेल, भाजपा प्रदेश महामंत्री पूर्व विधायक रामजी भारती, भाजपा मंडल अध्यक्ष अमित जैन चंद्रगिरी ट्रस्ट समिति के अध्यक्ष किशोर जैन बाकी वरिष्ठ खिलाड़ी हरविंदर सिंह, हरप्रित सिंह आदि मंच पर उपस्थित रहे। प्रतियोगिता का प्रथम पुरस्कार 21000 रुपये की नगद राशि किशोर जैन चंद्रगिरी ट्रस्ट समिति के अध्यक्ष द्वारा दुर्ग टीम को दिया गया। दूसरा पुरस्कार अरविंद विश्वास द्वारा 11000 रुपये की नगद राशि डोंगरगढ़ की टीम को प्रदान की गई। अन्य इनाम भी दोनों टीमों के खिलाड़ियों को देकर मुख्य अथितियों द्वारा सम्मानित किया गया। प्रतियोगिता को सफल बनाने में सभी आयोजन समिति के सदस्यों का एवं डोंगरगढ़ की जनता को धन्यवाद देकर डॉक्टर इलेवन के क्राति कुमार नामदेव ने आभार व्यक्त किया।

प्राथमिक शाला भवन एवं सांस्कृतिक कलामंच निर्माण के लोकार्पण में शामिल हुए विधायक भोलाराम साहू

खुज्जी (दावा)। विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पांगरीखुर्द में विधायक भोलाराम साहू पहुंचकर विधिवत पूजा-अर्चना कर क्षेत्र के लोगों के सुख-समृद्धि की कामना की और नव-निर्माण प्राथमिक शाला भवन एवं सांस्कृतिक कलामंच निर्माण का लोकार्पण कर पट्टिका का अनावरण किए। विधायक श्री साहू ने ग्रामवासियों एवं ग्राम पंचायत पदाधिकारियों को उपरोक्त लोकार्पण विकास कार्यों के लिए बहुत-बहुत बधाई एवं शुभकामनायें दिए।

इस लोकार्पण कार्यक्रम के शुभ अवसर पर श्रीमती अंजली धावड़े सरपंच, श्रीमती रामछत्री चन्द्रवंशी जिला पंचायत सदस्य, देवारु मालेकर जनपद सदस्य, चुम्मन साहू जनपद सदस्य एवं जिला कांग्रेस महामंत्री, श्रीमती चंद्रिका वर्मा अध्यक्ष ब्लॉक महिला कांग्रेस छुरिया, ऋषी राजपूत ग्राम पटेल, अमरलाल साहू ग्राम पटेल, दिलीप नेताम, खेदराम यादव, थानसिंह साहू, आत्मा राम साहू, जगदीश यादव, सोमनाथ साहू, सगुन दास साहू, रेवाराम साहू, ईश्वर राजपूत, सन्तु राम साहू, पतिराम साहू, सुन्दर मण्डावी, समस्त महिला समूह एवं ग्रामवासी उपस्थित थे।

भामसं का श्रमिक संपर्क अभियान पहुंचा मोहला-मानपुर

राजनांदगांव (दावा)। भारतीय मजदूर संघ द्वारा पूरे देशभर में चलाये जा रहे श्रमिक संपर्क पखवाड़े का पिछले सप्ताह जिले व क्षेत्र में जोरदार ढंग से आगाज हो चुका है। भामसं कार्यकर्ता विभिन्न औद्योगिक इकाईयों व असंगठित क्षेत्र में जाकर संगठन के पिछले 70 वर्षो के कार्यो का लेखा-जोखा प्रस्तुत कर रहे है और अब तक किये गये संघर्षो की जानकारियां देकर उपलब्धियां बता रहे है। भामसं के जिला मंत्री नरेश साहू ने प्रेस बयान में बताया कि राजनांदगांव जिले के विभिन्न अंचलों खैरागढ़ जिले व मोहला-मानपुर जिले में श्रमिक संपर्क पखवाड़े के तहत पिछले दस दिनों में संगठित व असंगठित क्षेत्र के हजारों श्रमिकों से संपर्क हो चुका है। सभी ने भामसं के सिद्धांतों व विचारों के प्रति सजगता दिखाते हुये श्रमिक हित में किये गये कार्यों में रूचि दिखा रहे है।

श्री साहू ने कहा कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की मालीदशा अत्यंत ही सोचनीय है, जिन्हे श्रम कानूनों के तहत न्यूनतम वेतन मिलता न ही भविष्य निधि का लाभ दिया जा रहा है और न ही बीमा चिकित्सा की समुचित व्यवस्था है। जहां सरकार नियोजक है वहाँ भी असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का बेहद शोषण हो रहा है। निजी क्षेत्र में भी बुराहाल है, आठ की जगह बारह-बाहर घंटे तक मजदूरों से काम लिया जा रहा है और उन्हे सुविधाओं के नाम ठेंगा दिखाया जा रहा है। श्रमिक संपर्क के दौरान मजदूर संघ को यह पता चला कि अनेक ऐसे लोग भी है जिनके पास जो भूमिहीन व आवासहीन भी है किन्तु इनके लिये सरकार की कोई योजना नहीं है। इस हेतु क्षेत्र में व्यापक संघर्ष अभियान संगठन की ओर से चलाया जायेगा। आज हुये श्रमिक संपर्क अभियान में मोहला-मानपुर जिले के गोटाटोला, मोहभट्ठा, दनगढ़, गोपलिनचुवां व बिहरीकला में ग्रामीण मजदूरों से व्यापक संपर्क किया गया। इस दौरान प्रमुख रूप से गोपाल पुजारी, हेमंत साहू, सौम्य पुजारी, उत्तरा साहू, मालती मंडावी, भारती शर्मा, धनेश्वरी साहू, दुकालू कौशिक सहित बड़ी संख्या में भामसं कार्यकर्ता उपस्थित थे।

बुनियादी प्रशिक्षण केन्द्र में बच्चों को मिला स्वेटर

डोंगरगांव(दावा)। नगर के बुनियादी प्रशिक्षण संस्थान(बी.टी.आई.) के अधीनस्थ संचालित शासकीय प्रायोगिक शाला में प्रधानपाठिका मीना गंगबेर के सौजन्य से प्राप्त स्वेटर को कक्षा पहली से पांचवीं तक के बच्चों को वितरित किया गया, लगातार बढ़ते ठंड के प्रकोप से सुरक्षित रखने के लिए सहायक विकासखंड शिक्षा अधिकारी जयंत साहू एवं सेवाराम पटेल अध्यक्ष पटेल समाज डोंगरगाँव के करकमलों से स्वेटर वितरण किया गया। सहायक विकासखंड शिक्षा अधिकारी जयंत साहू द्वारा बच्चों को प्रतिदिन शाला आने व पढ़ाई में विशेष ध्यान देने के लिए प्रेरित किया गया। उक्त कार्यक्रम में पोषण साहू (व्याख्याता बी.टी.आई.), शशांक साहू (शिक्षक) एवं प्रयोगिक शाला में पदस्थ शिक्षक इंद्रकुमार सिन्हा व नरेंद्र चंद्रवंशी उपस्थित रहे।

संस्कार सिटी इंटरनेशनल स्कूल में वार्षिक खेल महोत्सव का समापन

राजनांदगांव (दावा)। बच्चों के समग्र और व्यक्तिगत विकास के लिए खेलों का महत्व अत्यधिक है। संस्कार सिटी इंटरनेशनल स्कूल के वार्षिक खेल महोत्सव का सफलतापूर्वक समापन हुआ। इस अवसर पर स्कूल के छात्र-छात्राओं ने वर्षभर में आयोजित विभिन्न राज्य स्तरीय और राष्ट्रीय क्रीड़ा प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए चयनित हुए। इन सभी छात्र-छात्राओं को मुख्य अतिथि मृणाल चौबे (अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी) एवं विशिष्ट अतिथि डॉ टी. वर्मा (प्राचार्य, संस्कार सिटी कॉलेज ऑफ फार्मेसी, राजनांदगाव) एवं प्राचार्या श्रीमती रेखा तिवारी ने पुरस्कृत कर उनका उत्साहवर्धन किया तथा अपनी शुभकामनायें दीं।

कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के तैलचित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन से हुआ। मंचस्थ अतिथियों का आत्मीय स्वागत स्कूल प्रबंधन व छात्र पदाधिकारियों ने पुष्प-गुच्छ भेंटकर किया। इस अवसर पर बच्चों ने सरस्वती वंदना व स्वागत गीत की सुमधुर प्रस्तुति दी।

मुख्य अतिथि मृणाल चौबे ने बच्चों को संबोधित करते हुए खेल और खिलाड़ी भावना के महत्व पर

प्रकाश डाला और अनुशासन के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। अतिथियों द्वारा खेल उत्सव का शुभारंभ मशाल प्रज्जवलन एवं रंग-बिरंगे गुब्बारे उड़ाकर किया गया। इसके पश्चात् पूर्ण अनुशासन का परिचय देते हुए सत्य, धर्म, विनय व धैर्य सदन के विद्यार्थियों ने आकर्षक मार्च पास्ट करते हुए अतिथियों को सलामी दी।

प्राचार्या रेखा तिवारी ने स्वागत भाषण देते हुए शाला की खेल संबंधित उपलब्धियों की जानकारी दी। विद्यार्थियों ने विभिन्न रंगारंग कार्यक्रम व व्यायाम की प्रस्तुति दी। इस अवसर पर कक्षा छठवीं के बालक-बालिकाओं द्वारा विश्व क्रिकेट मैच को प्रदर्शित करते हुए नृत्य नाटिका की प्रस्तुत की तथा कक्षा छठवीं से आठवीं तक के बच्चों के द्वारा ड्रिल पीटी का आयोजन किया गया। योग के नृत्य के माध्यम से सभी दर्शकों और अभिभावकों का मनोरंजन किया गया।

इस अवसर पर कक्षा नर्सरी से 12वीं तक के बच्चों के लिए विभिन्न खेलों का आयोजन किया गया, जिसमें सभी वर्ग के बच्चों के द्वारा अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया गया। अभिभावकों के लिए भी विभिन्न खेलों का आयोजन किया गया। महिलाओं के लिए कुर्सी दौड़ जिसमें प्रथम स्थान श्रीमती श्वेता चंद्राकर, द्वितीय स्थान श्रीमती लीना चंद्राकर तथा तृतीय स्थान श्रीमती सुनीता नेताम एवं पुरूषों के लिए 50 मीटर दौड़ जिसमें प्रथम स्थान हेमराज पटेल, द्वितीय स्थान कमल नेताम और तृतीय स्थान रघुनंदन साव ने अर्जित की। विद्यार्थियों के साथ ही अभिभावकों ने भी अपने बचपन के स्कूली दिनों को जिया और इस खेल दिवस का लुत्फ उठाया। संस्था के प्रबंधकगण ललित अग्रवाल अध्यक्ष, अतुल देशलहरा सचिव, प्राचार्या श्रीमती रेखा तिवारी ने विजेताओं को बधाइयां दी एवं उज्जवल भविष्य कामना की। इसके पश्चात् मंचस्थ अतिथियों ने संस्था की उन खेल प्रतिभाओं को स्मृति चिन्ह व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। जिन्होंने सत्र 2024-25 में राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर संस्था एवं क्षेत्र को गौरवान्वित किया है। सभी सदन के विद्यार्थियों ने अपने सदन को जीत दिलवाने के लिए अपना शत-प्रतिशत दिया। बेस्ट हाउस का अवार्ड ब्लू हाउस (विनय) को दिया गया। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ।

साय सरकार के 1 साल पूरे,....

0 उपमुख्यमंत्री ने दी मुख्यमंत्री को बधाई- मुख्यमंत्री साय के पहले उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि आज से ठीक एक साल पहले विष्णुदेव साय सरकार का गठन हुआ था, जनता ने ऐतिहासिक जनादेश दिया था। इस एक साल में मोदी की गारंटी को हमारी सरकार ने पूरा किया, हमारा नारा था हमने बनाया, हम ही सवारेंगे, यह नारा आज साकार हो रहा है, मैं मुख्यमंत्री सहित अपने सभी साथियों के उपलब्धियों भरे एक साल के लिये बधाई देता हूं।

केजरीवाल के खिलाफ कांग्रेस ...

शिवांक सिंघल- आदर्श नगर, जयकिशन- सुल्तानपर माजरी (एससी), प्रवीण जैन- शालीमार बाग, अनिल भारद्वाज- सदर बाजार, पीएस बावा- तिलक नगर, राजेंद्र तंवर- छतरपुर, जय प्रकाश- अंबेदकर नगर (एससी), गर्वित सिंघवी- ग्रेटर कैलाश। बता दें, दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी सूची जारी करने में आगे रही है। 9 दिसंबर को पार्टी ने 20 प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी की थी। इसमें पार्टी ने अपने वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया का चुनाव क्षेत्र बदल दिया था। सिसोदिया अभी पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं, लेकिन पार्टी ने इस बार उन्हें जंगपुरा सीट से चुनावी जंग में उतारा है। पटपड़गंज सीट से अवध ओझा मैदान में होंगे।

इससे पहले 21 नवंबर को आप ने 11 सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए थे। पार्टी अब तक 31 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर चुकी है। पार्टी ने 16 विधायकों को इस बार अभी तक टिकट नहीं दिया है। इस तरह 51 प्रतिशत सीटिंग विधायकों को इस बार पार्टी ने मौका नहीं दिया है।

प्रथम पेज का शेष

असम में एनआरसी नहीं तो....

उन्होंने आम आदमी पार्टी के भाजपा पर दिल्ली में रोहिंग्याओं को बसाने के आरोप पर कहा कि हम क्यों चाहेंगे कि कोई अवैध तरीके से हमारी संपत्तियों पर कब्जा कर ले। असम की कैबिनेट ने विगत बुधवार को आधार कार्ड को एनआरसी से जोड़ते हुए कहा कि था कि जिन लोगों ने अब तक एनआरसी में आवेदन नहीं किया है, उन्हें अब आधार कार्ड नहीं मिलेगा।

आधार के आवेदन को तत्काल रद्द करके इसकी रिपोर्ट केंद्र को भेजी जाएगी। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने प्रेस कॉफ्रेंस में बताया कि इस निर्णय का उद्देश्य बांग्लादेश से घुसपैठ की चिंताओं को दूर करना है। हमने आधार कार्ड प्रणाली को सख्त बनाने का फैसला किया है।

0 विपक्ष ने किया फैसले का विरोध- विपक्षी दल कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस ने असम सरकार के फैसले की आलोचना करते हुए कहा कि एनआरसी आवेदन की पूर्व शर्त आधार कार्ड होने के फैसले ने असम को बनाना रिपब्लिक (अविकसित राज्य) बना दिया है। लोकसभा में कांग्रेस के उप नेता गौरव गोगोई ने एक्स पर पोस्ट में कहा कि असम में फर्जी लाभार्थियों की समस्या बड़ी है। राज्यसभा में तृणमूल सदस्य सुष्मिता देव ने कहा कि अब तक एनआरसी को अधिसूचित नहीं किया गया है, लेकिन उसके आधार पर आधार कार्ड में रुकावट डाली जा रही है।

मोदी सरकार का बड़ा फैसला

एक कॉमन बिजनेस आइडेंटिफायर बनाना है।- 'वन नेशन, वन सब्सक्रिप्शन' स्कीम को मिली थी मंजूरी- पिछली कैबिनेट बैठक में छात्रों और युवाओं के लिए वन नेशन, वन सब्सक्रिप्शन योजना को मंजूरी दी गई थी। यह स्कीम छात्रों को एकल सब्सक्रिप्शन के माध्यम से पूरे देश में शैक्षणिक सामग्री और संसाधन उपलब्ध कराने की दिशा में काम करेगी। इस योजना से शिक्षा के क्षेत्र में एकरूपता और समानता लाने की कोशिश की जाएगी।

तीन नए रेलवे प्रोजेक्ट और खेती के लिए नई योजना - कैबिनेट ने किसानों के लिए राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन को मंजूरी दी। इसके अलावा, तीन नए रेलवे प्रोजेक्ट भी स्वीकृत किए गए हैं। इन प्रोजेक्ट्स से देश में कनेक्टिविटी और रोजगार के नए अवसर बढ़ेंगे। सरकार ने अटल इनोवेशन मिशन 2.0 को भी मंजूरी दी, जो युवाओं को इनोवेशन और स्टार्टअप के लिए प्रोत्साहित करेगा।

क्या कहती है सरकार की योजना?- मोदी सरकार की इन नई पहलों का उद्देश्य देश में विकास को तेज करना और नागरिकों के जीवन को सरल बनाना है। 'वन नेशन, वन इलेक्शन' विधेयक से चुनावी खर्च और समय की बचत होगी। क्विक कोड वाले पैन कार्ड से नागरिकों की डेटा सुरक्षा सुनिश्चित होगी। वहीं, 'वन नेशन, वन सब्सक्रिप्शन' योजना से छात्रों के लिए शिक्षा सुलभ बनेगी।

अमित शाह कल आएंगे छत्तीसगढ़...

दोपहर 12.30 से 2.00 तक अमित शाह सीक्रेट मीटिंग में शामिल होंगे। फिर दोपहर 3 बजे जगदलपुर से रायपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। शाम 4:00 बजे वापस रायपुर के मेफेयर रिजॉर्ट पहुंचेंगे और शाम 4:15 से 5:45 बजे तक सुरक्षा संबंधी समीक्षा बैठक में शामिल होंगे। इसके बाद शाम 6:00 बजे रायपुर एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे।

आयुक्त ने शहर के आंतरिक क्षेत्रों में सफाई व्यवस्था का लिया जायजा

राजनांदगांव (दावा)। निगम आयुक्त अतुल विश्वकर्मा आज सफाई व्यवस्था देखने शहर के आंतरिक क्षेत्र आजद चौक, गांधी चौक, ब्राम्हण पारा, ठेठवार पारा, दुर्गा चौक, किल्ला पारा में साफ सफाई व्यवस्था देख ठेका वार्ड के ठेकेदारों से अपने वार्ड के अलावा आस-पास के वार्ड में सफाई कर सहयोग करने कहा। उन्होंने नागरिकों से भी साफ सफाई में सहयोग कर कचरा डोर टू डोर कचरा सग्रहण गाडी में डालने की अपील किये।

0 सफाई ठेकेदारों को अपने ठेका वार्ड के आसपास वार्ड में सफाई कर सहयोग करने कहा
0 नागरिकों से कचरा डोर टू डोर कचरा संग्रहण गाडी में डालने तथा सफाई में सहयोग करने की अपील

आयुक्त श्री विश्वकर्मा ने आजाद चौक, गांधी चौक, ब्राम्हण पारा,ठेठवार पारा में साफ सफाई देख स्वच्छता निरीक्षक दीपक श्रीवास्तव से कहा कि यह क्षेत्र शहर का घना बस्ती वाला क्षेत्र है, इसके गलियों व नाली नालो की सफाई कर नियमित कचरा उठावे। उन्होने नागरिकों से रूबरू हो कहा कि कचरा डोर टू डोर कचरा संग्रहण गाडी में डाले, आस पास व नाली में कचरा न डाले। उन्होंने कहा कि वर्तमान में निगम कर्मी हडताल पर है, जिससे सफाई प्रभावित हो रही है। ऐसी विषम परिस्थिति में सहयोग करे, निगम के अधिकारी अपने स्तर पर व्यवस्था बनाने लगे हुये है। आयुक्त श्री विश्वकर्मा दुर्गा चौक, किल्ला पारा क्षेत्र का पार्षद सुश्री मणीभास्कर गुप्ता के साथ भ्रमण कर लीला अपार्टमेंट वालो को नाला में कचरा न डालकर डोर टू डोर कचरा संग्रहण वाली गाडी में डालने समझाईस दिये।

उन्होंने कहा कि आप अपने अपार्टमेंट के आसपास साफ सफाई रखे, नियमित रूप से यूजर चार्ज देवे, सफाई में सहयोग करे। राजीव नगर एसएलआरएम सेन्टर पहुँच कचरा पृथककरण की जानकारी लिये। सेन्टर संचालन से चर्चा कर सेन्टर की समस्या से अवगत होकर निराकरण करने मिशन सह प्रभारी पवन कुर्रे को निर्देश दिये। आयुक्त ने ठेका वार्डो में सफाई का जायजा लेकर सफाई में सुधार करने के साथ-साथ वर्तमान में हडताल के निराकरण तक अपने आसपास के वार्डो में भी सफाई कर सहयोग करने सफाई ठेकेदारों से कहा। उन्होंने कहा कि अति आवश्यक सेवा बिजली, पानी, सफाई प्रभावित न हो इसके लिये प्रयास किया जा रहा है, निगम के अधिकारी सुचारू कार्य के लिये लगे हुये है।

स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक व मुद्रक दीपक कुमार बुद्धदेव द्वारा स्वस्तिक ऑफसेट एण्ड स्क्रीन प्रिंटर्स, बल्देवबाग रोड, राजनांदगांव से मुद्रित कर प्रकाशित। सम्पादक दीपक कुमार बुद्धदेव।
* समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के तहत जिम्मेदार। * किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र राजनांदगांव रहेगा। फोन नं. - 07744-406631 e-mail : dainikdawa_rjn@yahoo.com